



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27, 2007 (आषाढ़ 30, 1929)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2007 (ASADHA 30, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 21 जून 2007

सं. ए-60011/8/05/प्रशा.1.--दिनांक 9 अप्रैल, 2007 की पूर्व  
अधिसूचना के आंशिक संशोधन में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005  
की धारा 19 तथा धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग  
के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विषयों से  
संबंधित सूचना के बारे में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के  
रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है:--

के. लो. सू. अधि. का नाम	विषय वस्तु	दूरभाष नं.	संबंधित अपीलीय प्राधिकारी का नाम
श्री के. एस. बरियार उप सचिव (ई. ए.)	सिविल सेवा परीक्षाएं, परीक्षा से संबंधित नीति, गोपनीय अनुभाग से संबंधित मामलों से संबंधित सभी मामले	23383052	श्री वी. पी. सिंह संयुक्त सचिव (प.)

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/134/3/98/2004.--श्री के. एल. सेठी ने  
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 जून, 2007 अपराह्न से  
कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/136/3/34/2002.--श्री डी. के. चौधरी ने  
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 जून, 2007 अपराह्न से पुलिस  
अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2007

सं. 2/18/07-प्रशासन/60341.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री पारितोष सरकार को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 11.06.2007 (पूर्वाह्न) से 14.08.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

सतविन्दर सिंह  
अवर सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. 2/21/07-प्रशासन/61667.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव श्री सुरजीत सिंह को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 15.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. एम. पिल्लै  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

## गृह मंत्रालय

सदर वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 29 जून 2007

सं. 15011/11/2007-स्था.--श्रीमती भावना अभय पोरवाल, हिन्दी अनुदेशक, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में (मूल वेतन का 15% प्रशिक्षण भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता व परिवहन भत्ता, जो समय-समय पर स्वीकार्य होगा।) दिनांक 21 जून, 2007 पूर्वाह्न से स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हिन्दी अनुदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर तीन वर्ष के लिए अथवा अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है।

डॉ. जी. एस. राजागोपाल  
निदेशक

महानिदेशालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. पी तीस-2/2007-कार्मिक-3.--सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षकों ने प्रत्येक के सामने लिखे

गए कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	श्री पी. पी. शास्त्री अनुभाग अधिकारी ईरला संख्या 7245	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल भुवनेश्वर	01.06.2007 (पूर्वा.)
2.	श्री के. ए. धानी अनुभाग अधिकारी ईरला संख्या 7257	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल हैदराबाद	01.06.2007 (पूर्वा.)
3.	श्री राजेशखर धर अनुभाग अधिकारी ईरला संख्या 7247	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल सिलिगुड़ी	02.06.2007 (पूर्वा.)
4.	श्री शिवनाथ राय अनुभाग अधिकारी ईरला संख्या 7259	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल सिलचर	07.06.2007 (पूर्वा.)
5.	श्री के. जी. देवराजन अनुभाग अधिकारी ईरला संख्या 7277	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल नई दिल्ली	23.06.2007 (पूर्वा.)

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जून 2007

सं. ई-16013/(1)/99/कार्मिक-1/1675.--प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री आर. पी. ठाकुर, भा. पु. से. (ए.पी. : 86), उप महानिरीक्षक ने दिनांक 12.06.2007 (अपराह्न) को उप महानिरीक्षक के औसुब, पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय, पटना के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 127-जी.ई.-1/13-2006.--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं:--

क्र. सं.	नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	के. जी. महालिंगम	अधिवार्षिकी दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न)
2.	पी. के. जेना	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 01.06.2007 (पूर्वाह्न)

1	2	3
	सर्वश्री	
3.	जे. डी. सहाय	अधिवार्षिकी दिनांक 30.06.2007 (अपराह)
4.	एम. आर. खारे	अधिवार्षिकी दिनांक 30.06.2007 (अपराह)
5.	वाई. आर. रंगारी	अधिवार्षिकी दिनांक 30.06.2007 (अपराह)

दीपक नारायण  
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/67.--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम	डिविजन
1.	श्री अरुनाभ माईति	सेन्ट्रल डिविजन, कोलकाता-I
2.	श्री अशोक कुमार राय	वीरभूम पी.एच.ई. डिविजन

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22(I)(क)(I) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह/- अपठनीय  
उप महालेखाकार (लेखा)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 25 अप्रैल 2007

सं. 777ए/ए-19012/(4-टी.एस.)/97/19बी.--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-48 (ए) के अंतर्गत श्री तापस साध्य, वेधक श्रेणी-I, 01.03.2007 (पूर्वाह) से प्रभावित स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए।

डी. टी. सिम्लेह  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. सी.-2791/724-एस.ओ.एस.(ए)(1).--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' भण्डार सहायक को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भण्डार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 5,500-175-9,000 के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. सत्यनारायण	26.04.2007

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2007

सं. ए-32013(निदेशक)/18/2004/स्था.1.--राष्ट्रपति ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से उसी विभाग में निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है:--

क्रम सं.	नाम	निदेशक के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1.	श्री आर. पी. उनियाल	18.10.2006 (अ.)
2.	श्री एन. पी. भटनागर	07.03.2007 (अ.)
3.	श्री एल. ए. सिद्धिकी	22.02.2007 (अ.)
4.	श्री वी. एल. प्रसादा राव	20.10.2006
5.	श्री सी. एम. पुरानिक	18.10.2006 (अ.)
6.	श्री वी. एम. यूनस	03.05.2007
7.	श्री सी. एल. गौतम	18.10.2006 (अ.)
8.	श्री विनोद कुमार	19.10.2006
9.	श्री आर. डी. राम	18.10.2006 (अ.)
10.	श्री मन्नु राम	18.10.2006 (अ.)
11.	श्री एम. दुरायसामी	19.10.2006

1	2	3
12.	डा. शिव गणेश	31.10.2006
13.	श्री ए. जे. मैथ्यू	03.11.2006
14.	श्री बी. के. विश्वास	19.10.2006
15.	श्री एम. एस. साहू	20.10.2006
16.	श्री ए. के. चक्रवर्ती	15.03.2007
17.	श्री के. सीधाराम	08.11.2006

अंशुलि आर्य  
मौसम विभाग के उपमहानिदेशक  
(प्रशासन एवं भण्डार)  
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. 1(1)/2005/ए डी एम-III/2007/5917.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री ए. डी. राउल, वरिष्ठ लिपिक, को दिनांक 09.04.2007 (पूर्वाह्न) से 09.05.2007 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. शशिधरन  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. पीडी/11(2)/2007/आर-III/07/5907.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती के. भगवती, सहायक लेखाकार, को दिनांक 07.05.2007 (पूर्वाह्न) से 15.06.2007 (अपराह्न) तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

मुंबई-400705, दिनांक 27 जून 2007

सं. ब्रिट/टी/115/46.--विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, सहायक लेखापाल, श्री ए. बी. कांबले को, दिनांक 16.12.2006 के पूर्वाह्न से 25.01.2007 के अपराह्न तक इसी एकक में

रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन  
प्रशासन अधिकारी-III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. ए-19011/19/1998-ई-II.--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 15.06.2007 के कार्यालय आदेश सं. 12016/4/JAG(अस्थाई)/05-06-2005 आईएसएस के द्वारा महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में श्री पुरुषोत्तम लाल, उपनिदेशक को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप सष्टपति इनको 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 18.06.2007 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (आईएसएस) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

रविन्द्र कुमार  
उपनिदेशक प्रशासन

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2007.--श्री बी. एल. हिरवे, सहायक पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, जबलपुर पीठ, जबलपुर, निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 30 अप्रैल, 2007 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2007.--श्री डी. सोमसुन्दरम, निजी सहायक, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, श्रम न्यायालय, चैन्नई को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ, मुंबई में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 18.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2007.--श्री इ. डि. तिरोडकर, सहायक पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (मुख्यालय

मुंबई), निर्वतन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 30 जून 2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. एल.सी./560(3)/20-12042/584.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि आज की तिथि से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर मैसर्स गंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एस. आये प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

सं. एल.सी./560(3)/20-13281/616.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि आज की तिथि से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर मैसर्स एस. एस. आये प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144003, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. एस.ई.एस./2005/560/422.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किया गया तो इन कम्पनियों का

नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	13039	मैसर्स जियो ड्यरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	30298	मैसर्स अल्फा और सोरसिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	22009	मैसर्स जान्जी हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
4.	27237	मैसर्स टी के गोम्ज प्राईवेट लिमिटेड
5.	29243	मैसर्स दिक्शा प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	29244	मैसर्स रीबर दाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
7.	27324	मैसर्स रीवाज़ फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
8.	15982	मैसर्स गुरदेव स्टील रोल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	13723	मैसर्स एम एस एडवांससीज प्राईवेट लिमिटेड

के. सी. मीना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माऊन्ट्स वेली डेयरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जम्मू, दिनांक 29 जून 2007

सं. 560(3)/2007/609.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माऊन्ट्स वेली डेयरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उधमपुर कैटल एण्ड पोल्ट्री फीड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जम्मू, दिनांक 29 जून 2007

सं. 560(3)/2007/615.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उधमपुर कैटल एण्ड पोल्ट्री फीड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न



तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तवी फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. पी. मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जम्मू, दिनांक 29 अप्रैल 2007

सं. 560(3)/2007/669.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन. पी. मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओसवाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जम्मू, दिनांक 29 जून 2007

सं. 560(3)/2007/675.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओसवाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शारदा फार्मस् एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जम्मू, दिनांक 29 जून 2007

सं. 560(3)/2007/633.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शारदा फार्मस् एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अभीप्रिया ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी./04-25371/एस.टी.ए./560(3)/2007/3774  
--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अभीप्रिया ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एल. एफ. एल. ऐसट मेनेजमेन्ट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी./04-29500/एस.टी.ए./560(3)/2007/3790  
--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जी. एल. एफ. एल. ऐसट मेनेजमेन्ट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 2007

सं. आर.ओ.सी./जी.टी.ए./केएचएम/एसईएस/252007.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इस नोटिस की तारीख से रजिस्टर से रद्द किया जाता है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र.	रजिस्टर्ड सं.	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	04-37961	मैसर्स परमेश बेवरेजीस प्राईवेट लिमिटेड
2.	04-19109	मैसर्स पायल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	04-28772	मैसर्स पार्श्व पौआं एण्ड राईस मिल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	04-23889	मैसर्स पूनम इन्वेस्टमेंट एण्ड कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5.	04-14762	मैसर्स प्रकाश रेयोन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	04-06739	मैसर्स रागवानी पोलीमारबल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	04-35119	मैसर्स पानानेट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	04-31602	मैसर्स रमाबेन मोनीटरी एण्ड मार्केटिंग सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
9.	04-42127	मैसर्स रिशी ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	04-22956	मैसर्स रामकृष्णा टेक्ष्युराईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	04-30318	मैसर्स रक्षा फिनलेश प्राईवेट लिमिटेड
12.	04-36393	मैसर्स राधाकृष्णा फेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	04-38605	मैसर्स रोयल इंडिया मोडल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	04-16066	मैसर्स रेपे केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	04-36517	मैसर्स रिशी एण्ड ए.सी.टी. प्राईवेट लिमिटेड
16.	04-36302	मैसर्स शायोका इन्फोसीस प्राईवेट लिमिटेड
17.	04-34221	मैसर्स सानिध्य प्रिन्टिंग एण्ड पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	04-02143	मैसर्स एस. ठाकोर रबर एण्ड प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	04-26163	मैसर्स श्री पोल्-कोन प्राईवेट लिमिटेड
20.	04-17004	मेसर्स शेरमान ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
21.	04-42467	मैसर्स सोल्युशन पार्टनर गुजरात प्राईवेट लिमिटेड
22.	04-19657	मैसर्स सिलीटे निकीता प्राईवेट लिमिटेड
23.	04-2003	मैसर्स श्री शिव शक्ति फिन ओ फेब प्राईवेट लिमिटेड
24.	04-40298	मैसर्स सिल्कसीटी इलेक्ट्रीसीटी कम्पनी लिमिटेड
25.	04-36322	मैसर्स स्टेलीयोन इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
26.	04-24562	मैसर्स सिक्युरिटीज रिसर्च एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेस लिमिटेड
27.	04-34265	मैसर्स शालासर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	04-41209	मैसर्स सरदार ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	04-24467	मैसर्स संघवी ओक्सीफ्लेम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	04-42675	मैसर्स स्पेनेनोईड कंसलटेन्सी सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
31.	04-17521	मैसर्स तेज देव प्लास्टिक विन्डोर प्राईवेट लिमिटेड
32.	04-26126	मैसर्स टेक्सुस फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	04-44483	मैसर्स युनिफिल यार्न्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	04-38252	मैसर्स वामा ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
35.	04-35410	मैसर्स वेक्टर केम टेक प्राईवेट लिमिटेड
36.	04-41841	मैसर्स वन्दना हास्पिटालिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
37.	04-40862	मैसर्स विमेश्वर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	04-18552	मैसर्स योनेक्स सिस्टम लिमिटेड
39.	04-22190	मैसर्स योनेक्स लिजिंग एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	04-19221	मैसर्स योगी डायनामिक सिडिंकट प्राईवेट लिमिटेड
41.	04-07058	मैसर्स सुकम इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
42.	04-06666	मैसर्स गुजरात प्रोजन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	04-32960	मैसर्स भाग्योदय जिनिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 2007

सं. आर.ओ.सी./पटना/560(5).--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	निबंधन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	03-9874	मैसर्स हनी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	03-9946	मैसर्स सनलोड्स होम्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	03-9877	मैसर्स आर. पी. सिंह डांगी, साइकिल, रिक्शा, ठेला सप्लाय कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
4.	03-9986	मैसर्स राइजर एसपेरर फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	03-3273	मैसर्स पटना इलेक्ट्रो अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	03-9989	मैसर्स अलोहा इंफोसिस्टम लिमिटेड



1	2	3
7.	03-9114	मैसर्स हिर्सीब्योम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	03-9990	मैसर्स जिझुली कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	03-9887	मैसर्स उन्नत कंज्यूमर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	03-3274	मैसर्स एनू इंजीनियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
11.	03-9616	मैसर्स विकास कुनाल वातानुकूलित प्राईवेट लिमिटेड
12.	03-9609	मैसर्स मां शरावाली कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	03-9385	मैसर्स अतिथी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	03-9360	मैसर्स कार्तिके बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	03-9493	मैसर्स सामभुति एग्रो एक्सपोर्ट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
16.	03-9199	मैसर्स सारा निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
17.	03-9841	मैसर्स सेरयस एक्सीम लिमिटेड
18.	03-9837	मैसर्स अमाजेर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	03-9922	मैसर्स डिनिस मोटर प्राईवेट लिमिटेड
20.	03-3276	मैसर्स एवरसन इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	03-9072	मैसर्स औरनेट कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	03-9089	मैसर्स चित्रगुप्ता इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	03-9888	मैसर्स पिरामेडल नेटवर्क एंड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
24.	03-9206	मैसर्स ग्रीन एनर्जी डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
25.	03-2355	मैसर्स मार्क्स एंड कम्पनी होटल प्राईवेट लिमिटेड
26.	03-2145	मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीयल एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
27.	03-2155	मैसर्स कुमार टेक्नोफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	03-2142	मैसर्स होटल रोज बड प्राईवेट लिमिटेड
29.	03-1001	मैसर्स मौपको इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
30.	03-1005	मैसर्स साजेभा होटल एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
31.	03-1006	मैसर्स अशोक ड्रग एंड एप्लांसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	03-1009	मैसर्स बिहार टाइप फाउंडरी प्राईवेट लिमिटेड
33.	03-1010	मैसर्स आदित्यापुर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	03-1011	मैसर्स बिहार इलेक्ट्रीकल्स एंड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

1	2	3
35.	03-9921	मैसर्स अरविंद मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
36.	03-9901	मैसर्स रणविजय इंडियन स्काई सॉप प्राईवेट लिमिटेड
37.	03-9914	मैसर्स मेछाटरोनिक्स एलाएंस लिमिटेड
38.	03-9907	मैसर्स कर्नावती इंटरप्राइजेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
39.	03-9918	मैसर्स वुसताना विजन प्राईवेट लिमिटेड
40.	03-9802	मैसर्स आइसबर्ग सिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	03-9803	मैसर्स स्टेप-एन-स्टेप नेटवर्क एंड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
42.	03-9863	मैसर्स उदयांचल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	03-9685	मैसर्स राम बड़ाई सिंह कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
44.	03-9612	मैसर्स अनुभव लिगल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	03-10061	मैसर्स गंगासागर इंजीकॉनस प्राईवेट लिमिटेड
46.	03-3367	मैसर्स सरिता नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
47.	03-9697	मैसर्स भारद्वाज कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	03-9701	मैसर्स एरोसोल हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
49.	03-9546	मैसर्स आर्यान इटेलीजेंस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
50.	03-9600	मैसर्स राजकुश मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
51.	03-9935	मैसर्स राजबिन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	03-9940	मैसर्स बायोजेन हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
53.	03-9928	मैसर्स रिडायल बेल्स नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	03-3363	मैसर्स अपना आशियाना प्राईवेट लिमिटेड
55.	03-9646	मैसर्स हरि ओम कैटलफीड प्राईवेट लिमिटेड
56.	03-9091	मैसर्स बाग बरि कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
57.	03-3339	मैसर्स पलेनम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	03-3332	मैसर्स राधिका डबलिंग मिल्स लिमिटेड
59.	03-9915	मैसर्स चिराग राज कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	03-9892	मैसर्स गोल्डन-एंड-गोल्डन हेल्पलाइन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
61.	03-9983	मैसर्स निर्मला रि-ट्रेडिंग कम्पनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
62.	03-9950	मैसर्स जीवन प्रगति नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
63.	03-9974	मैसर्स शेखर एग्रो कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
64.	03-9971	मैसर्स रॉयल पेंथर सिक्क्यूरीटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
65.	03-10016	मैसर्स ब्राइट मार्केटिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
66.	03-10084	मैसर्स शानू कुमार सिंह कांटेक्टर प्राईवेट लिमिटेड
67.	03-3395	मैसर्स शानव स्पेशलिटी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	03-3361	मैसर्स पूर्वांचल काँटेज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
69.	03-2088	मैसर्स शीतलसन औरगेनोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
70.	03-2095	मैसर्स पूर्वांचल पौलीवेज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
71.	03-2096	मैसर्स बर्मा कोल्ड स्टोरेज एंड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
72.	03-2121	मैसर्स आर्या निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
73.	03-2144	मैसर्स वैशाली पौलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	03-2309	मैसर्स धरती फर्टीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	03-2305	मैसर्स आईबीइक्स इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	03-2304	मैसर्स रोजी रि-रौलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	03-2317	मैसर्स साइनोनेम केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	03-9154	मैसर्स अर्चनाजेल लेबोरेट्रीज लिमिटेड
79.	03-9152	मैसर्स जमशेदपुर स्टील सर्किल प्राईवेट लिमिटेड
80.	03-3398	मैसर्स एम. हक एंड संस कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
81.	03-3330	मैसर्स श्री ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	03-10079	मैसर्स परंपरा पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	03-10668	मैसर्स सूर्या एंड संस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	03-9967	मैसर्स पेंटाओसियन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	03-4142	मैसर्स एम आर के यार्न इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

के. प्रसाद  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 15 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2007/1085-98.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 12 कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शित न किये जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560

की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये जाएंगे :--

क्र. सं.	पंजी. सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	58-005357	मैसर्स भामा शिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	मिजोरम
2.	02-005437	मैसर्स बिग बिड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-005438	मैसर्स मोरनेर टी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	02-005450	मैसर्स जी जी डी इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	असम
5.	02-005360	मैसर्स रोनापूर ऑटो प्राईवेट लिमिटेड	असम
6.	02-005409	मैसर्स पी. जी. स्टील प्राईवेट लिमिटेड	असम
7.	19-006464	मैसर्स बोरोक ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	त्रिपुरा
8.	02-006112	मैसर्स डेल्टा पावर सेल्स व सर्विसिस लिमिटेड	असम
9.	02-006082	मैसर्स एकोलेड शाफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	असम
10.	58-006077	मैसर्स हौवा स्टील प्राईवेट लिमिटेड	मिजोरम
11.	02-006416	मैसर्स मैक्रोफाइन टेनारी प्राईवेट लिमिटेड	असम
12.	02-006406	मैसर्स बन्जारा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 29 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2007.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 19 कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शित न किये जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये जाएंगे :--

क्र. सं.	पंजी. सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	19-006463	मैसर्स बोथोमा बुडुक डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	त्रिपुरा
2.	02-006414	मैसर्स शोनितापूर बीबरेजस व प्रोविजन प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-006348	मैसर्स न्यू असोम पोली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	02-006341	मैसर्स नमसई टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	असम
5.	02-006235	मैसर्स सरोवर एग्रो फूड प्राईवेट लिमिटेड	असम
6.	02-006210	मैसर्स सृष्टि बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
7.	02-006154	मैसर्स कजिरंगा इंडस्ट्रीयल सेक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड	असम

1	2	3	4
8.	02-006144	मैसर्स लक्सणोति इन्टरप्राइसिस लिमिटेड	असम
9.	12-006150	मैसर्स मैतेइ लैमा हेण्डलूम व ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	मणिपुर
10.	14-006510	मैसर्स बनलौई होटल प्राईवेट लिमिटेड	नागालैंड
11.	02-006106	मैसर्स आल्फस टेक्सटाईल्स लिमिटेड	असम
12.	14-006552	मैसर्स शेवी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	नागालैंड
13.	02-006533	मैसर्स प्रवीण डाटकोम प्राईवेट लिमिटेड	असम
14.	02-006413	मैसर्स दुर्बा इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
15.	02-006403	मैसर्स इषिता बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	असम
16.	23-006231	मैसर्स डोन्यी पोलो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
17.	02-006443	मैसर्स शन रिफ्री-सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
18.	23-006339	मैसर्स ओलिमा डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
19.	12-006332	मैसर्स मणिपुर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	मणिपुर

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मणिपुर ट्रेडिंग डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00018/367--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स मणिपुर ट्रेडिंग डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेनीसन होम फाइनान्स लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00021/369--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स बेनीसन होम फाइनान्स लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित

न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होली लैंड होस्पिटल व रीसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00024/371--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स होली लैंड होस्पिटल व रीसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्राणी टी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00027/373--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स अग्राणी टी प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टानी बिल्डर्स व प्लेन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00031/375--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स टानी बिल्डर्स व प्लेन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रह्मापुत्रा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00049/391--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स ब्रह्मापुत्रा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सतकारतर टी व एग्रीकल्चरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00046/393--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स सतकारतर टी व एग्रीकल्चरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मां हायर पर्चेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2007/00052/395--  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स मां हायर पर्चेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

को. आनन्दा राव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में।

कटक-753001, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. आरकेसी/एस.ई.एस./560(5)/1905.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-003220	मैसर्स होटेल निलचक्र प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-003269	मैसर्स भानु ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-003270	मैसर्स उदय ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-003271	मैसर्स सोम प्लांटेशन्स एण्ड एग्री फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-003277	मैसर्स सुवर्णतास मिनरल्स लिमिटेड
6.	15-003304	मैसर्स माधुरी सेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-003426	मैसर्स बन विकास प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-003457	मैसर्स कालिन्गा एग्रीटेक इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9.	15-003481	मैसर्स नागार्जुन ग्रीन प्लांटेशन लिमिटेड
10.	15-003553	मैसर्स रत्नगिरी रिसोर्ट्स एण्ड प्लांटेशन्स लिमिटेड
11.	15-003561	मैसर्स इस्टर्न प्लांटेशन एग्रीटेक लिमिटेड
12.	15-003571	मैसर्स थामसन ट्रेबल्स एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

वि. महान्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओस्ट्रिच फार्मिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. आर ओ सी/560(5)/6013/1943.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओस्ट्रिच फार्मिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित

हो गयी है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वि. महान्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 19 जून 2007

सं. एस एम/560(3)एस एम/आर ओ सी/एरनाकुलम/7339.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3501	मैसर्स बद्रदीपम चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	3522	मैसर्स तौमा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	3544	मैसर्स एसजी लूम्वर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	3577	मैसर्स इबच होटल कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	3586	मैसर्स सरजिकल ऐडज प्राईवेट लिमिटेड
6.	3606	मैसर्स प्रिमियर ओवरसिज कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
7.	3683	मैसर्स पुलियरा डेयरी एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	3697	मैसर्स फ्रैण्डस पब्लिशिंग्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	3702	मैसर्स पैटेंट सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
10.	3715	मैसर्स लिटिल प्रिन्स पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	3721	मैसर्स है रोक सीमेंट्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	3736	मैसर्स टेल्लिक मार्केटिंग लिमिटेड
13.	3755	मैसर्स लिंक मार्केटिंग सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
14.	3817	मैसर्स वेनाड बोटलिंग प्लांट प्राईवेट लिमिटेड
15.	3823	मैसर्स क्रोस डिटेकटीव एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
16.	3833	मैसर्स स्नोकिंस फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	3828	मैसर्स अनध्वारा फिल्मज प्राईवेट लिमिटेड
18.	3850	मैसर्स उदयलक्ष्मी कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
19.	3884	मैसर्स मलानाड कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	3888	मैसर्स के एन शिहाब कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	3907	मैसर्स ट्रेवलकार्ड सर्विसस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22.	3925	मैसर्स र्ज प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
23.	3972	मैसर्स जेनुविन ऑयल एण्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	4011	मैसर्स एयर कनडीशनींग एसेसरीज एण्ड जनरल एक्जूपर्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	4016	मैसर्स भापुजी ब्रिक्स एण्ड क्ले वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	4019	मैसर्स लूरदज हास्पिटल काम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	4030	मैसर्स टिकोन स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
28.	4043	मैसर्स अनध्वारा पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	4044	मैसर्स एबेन-एजर होम फॉर इंटीग्रेटेड हिलिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	4050	मैसर्स ब्लू लिंक्स इंटरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
31.	4056	मैसर्स होटल बिग बेन प्राईवेट लिमिटेड
32.	4067	मैसर्स जियो सिलिंडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
33.	4070	मैसर्स ओयसिस सोपस एण्ड डिटरजेन्ट्स मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
34.	4081	मैसर्स प्रोमोक्यूयर प्राईवेट लिमिटेड
35.	4086	मैसर्स अट्टापाडी फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
36.	4106	मैसर्स इरतु विमुक्ता बडा मॉटर सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
37.	4109	मैसर्स होटल एबेनेजर प्राईवेट लिमिटेड
38.	4122	मैसर्स पिकोक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	4135	मैसर्स दास डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
40.	4137	मैसर्स क्रोन सोफ्ट ड्रिंस प्राईवेट लिमिटेड
41.	4144	मैसर्स ओयसिस फर्नीशर्ज प्राईवेट लिमिटेड
42.	4156	मैसर्स पेगासज कन्सोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
43.	4160	मैसर्स प्रिया मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	4171	मैसर्स अप्सरा बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड

एस एम अमीरुल मिल्लत  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

चेन्नै, दिनांक 27 जून 2007

सं. 34810 से 51252 तक/560(5)/एसईएस-2005.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:—

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01	34810	मेसर्स पान केसीडीस कण्सट्रक्शन एण्ड रियलटी लिमिटेड ।
02	34836	मेसर्स डी जे गोल्ड हाऊस प्रैवेट लिमिटेड ।
03	34841	मेसर्स रा - गेम बेनीफीट फण्ड लिमिटेड ।
04	34846	मेसर्स जेनीत ओएसीस फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ।
05	34936	मेसर्स मेफेलैवर फैनान्शियल सर्वीसस लिमिटेड ।
06	34940	मेसर्स श्री रागवेन्द्रा विशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
07	34945	मेसर्स अक वे (इन्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
08	34966	मेसर्स इलैयराजा म्यूसीक इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड ।
09	34970	मेसर्स इलैयराजा तिथेटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
10	35053	मेसर्स कन्दन स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड ।
11	35058	मेसर्स नंदिका एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
12	35098	मेसर्स मलैकोट्टे चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
13	35103	मेसर्स कल्लीयनपुर हाऊसींग डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ।
14	35109	मेसर्स अप्ट एजुकेशन सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
15	35122	मेसर्स स्टेटीक किराफ़ कापीयर्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
16	35133	मेसर्स मद्रास ब्रीक्स & अलैड प्राडेक्ट्स लिमिटेड ।
17	35150	मेसर्स ट्रम्प लेदर्स (इन्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
18	35173	मेसर्स श्री बुवनेस्वरी फार्मचूटिकल्स एण्ड रिसर्च लेब प्रैवेट लिमिटेड ।
19	35243	मेसर्स तिलगम फैनान्शियल सर्वीसस लिमिटेड ।
20	35311	मेसर्स आटो पल्स इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
21	35324	मेसर्स आम बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
22	35383	मेसर्स अनसट इम्पेक्स इन्दिया प्रैवेट लिमिटेड ।
23	35395	मेसर्स है-टेक पवर लाण्डरी प्रैवेट लिमिटेड ।
24	35416	मेसर्स केनरा बेनिफिट फण्ड (मद्रास) लिमिटेड ।
25	35435	मेसर्स प्रीसीशन पालिमर प्राडेक्ट्स लिमिटेड ।
26	35460	मेसर्स स्पान सिमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
27	35472	मेसर्स कल्याण पेट्रो प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
28	35476	मेसर्स एक्स प्लस फैनान्स (इन्दिया) लिमिटेड ।
29	35477	मेसर्स कामसन्स प्रोकान प्रैवेट लिमिटेड ।
30	35544	मेसर्स ओम श्री सायी श्रीवारी ज्वलर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
31	35557	मेसर्स एन एस इन्फरमेशन सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
32	35658	मेसर्स आर.दवे आफ़तालमीक प्रैवेट लिमिटेड ।
33	35688	मेसर्स जमा टूर्स & ड्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
34	35689	मेसर्स गुरुपवन फैनान्स लिमिटेड ।
35	35702	मेसर्स इन्टलिजन्ट बेक आफ़िस सपोर्ट सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
36	35711	मेसर्स इन्दिया ओशनवेल्त बयोटेक्नालजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
37	35713	मेसर्स अम्बालाल रिसार्टस एण्ड होलडिंग्स लिमिटेड ।
38	35714	मेसर्स गुडविल टीम ट्रेड सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
39	35727	मेसर्स फिनसेर प्रापर्टीस प्रैवेट लिमिटेड ।
40	35743	मेसर्स चेन्नै केस्टिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
41	35745	मेसर्स एसएमआयी ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
42	35762	मेसर्स श्री जेयलक्ष्मी प्री फेब लिमिटेड ।
43	35781	मेसर्स असट्राल आर्नमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
44	35788	मेसर्स बेनमेक एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
45	35798	मेसर्स गोकीबे टेक्नोफील प्रैवेट लिमिटेड ।
46	35809	मेसर्स पोन रोस मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
47	35811	मेसर्स ओइट् लैन पौलट्री प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
48	35821	मेसर्स कोडीखरा चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
49	35826	मेसर्स अनुशा टेक्सटाइल्स लिमिटेड ।
50	35834	मेसर्स तिरुक्कडैयूर अबीरामी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड



क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
51	35837	मेसर्स देवकर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
52	35839	मेसर्स देवकर चिट्स लिमिटेड ।
53	35853	मेसर्स केमोर फैनान्शियल सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
54	35872	मेसर्स आरएनआर पब्लिशर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
55	35884	मेसर्स बेबी केबस प्रैवेट लिमिटेड ।
56	35890	मेसर्स पीएसपीएल पालीमर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
57	35893	मेसर्स ब्लाकस्टोन कण्सल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
58	35895	मेसर्स चेन्नै वेल्ड ट्रावल्स (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
59	35907	मेसर्स क्लासिक गोड फार्म प्रैवेट लिमिटेड ।
60	35908	मेसर्स आरक इन्दिया ओवरसीस प्रैवेट लिमिटेड ।
61	35910	मेसर्स विसुदा अग्रोटेक्स लिमिटेड ।
62	35919	मेसर्स मल्लीगावती हास्पिटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
63	35922	मेसर्स इण्डो कन्या फैनान्स एण्ड लेण्ड डेवलप्मेन्ट्स कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
64	35940	मेसर्स श्री सुदर्शनचक्रा टेक्सकाठ लिमिटेड ।
65	35954	मेसर्स मल्टीटेक्स एक्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
66	35981	मेसर्स हिक्मा मेडिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
67	35982	मेसर्स मिट्रास रिसिडेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
68	35985	मेसर्स मेक्सफर्ट इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
69	35996	मेसर्स तिरुच्ची प्रीमियर चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
70	36003	मेसर्स सिवगामी ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
71	36006	मेसर्स प्रेम फौन्डेशन्स (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
72	36019	मेसर्स मेजस्टीक इन्टेक्स डेकार प्रैवेट लिमिटेड ।
73	36020	मेसर्स रानार पेक प्रैवेट लिमिटेड ।
74	36028	मेसर्स विशकु फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
75	36037	मेसर्स जेन्टेक कण्सल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
76	36053	मेसर्स साण्ड्स चिट् फण्ड कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
77	36076	मेसर्स डैनाकान प्रमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
78	36083	मेसर्स डेटा टेक नेट वर्क्स प्रैवेट लिमिटेड ।
79	36094	मेसर्स सुबाश्री लीसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
80	36114	मेसर्स एसोकोपियर सर्वीस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
81	36117	मेसर्स श्रीवारी कणसद्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
82	36141	मेसर्स न्यूटेक्स पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
83	36167	मेसर्स कासमिन एन्टरप्राइस लिमिटेड ।
84	36174	मेसर्स आरल मेनेजमेन्ट एण्ड फैनाशियल कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
85	36177	मेसर्स रोनाप इलक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
86	36242	मेसर्स मेहत्ता सयन्टिफिक कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
87	36250	मेसर्स होटल एसएस पान्डियण प्रैवेट लिमिटेड ।
88	36293	मेसर्स केस्टल फाउन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
89	36309	मेसर्स भारतीश्वर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
90	36321	मेसर्स कार्ट टेक्नोलाजी (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
91	36322	मेसर्स ग्लोबल सिस्टम्स & सोल्यूशन्स (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
92	36326	मेसर्स सरश एन्टरटेयिन्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
93	36404	मेसर्स बशीर द्रावल & टूरस प्रैवेट लिमिटेड ।
94	36410	मेसर्स राम्की कणसल्टन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
95	36416	मेसर्स ऐटीए ट्रेड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
96	36433	मेसर्स लैफ़-टाईम एस्टेट्स (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
97	36467	मेसर्स हैकाम इन्फर्मेशन सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
98	36502	मेसर्स प्रो अम एक्सप्लोरेशन्स (इन्दिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
99	36511	मेसर्स कामदेनु आर्चड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
100	36526	मेसर्स गालक्सी कोटिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
101	36566	मेसर्स हिमालया अम्यूरमेन्ट प्लासा लिमिटेड ।
102	36614	मेसर्स श्री चक्रत्ताळवार टेक्सटाईल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
103	36625	मेसर्स महेन्दिरा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
104	36671	मेसर्स सरस्वती बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
105	36686	मेसर्स श्री स्वर्ण फ़ाउन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
106	36732	मेसर्स श्री गोकुल कृष्णा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
107	36763	मेसर्स आर.पी.के. प्लाट प्रमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
108	36794	मेसर्स अर्बन बेनिफिट फण्ड (दापनासम) लिमिटेड ।
109	36819	मेसर्स केएमडी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
110	36828	मेसर्स श्री श्रिंगेरी टेक्सटाईल्स लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
111	36834	मेसर्स तमिलनाडु बेब्रीक्स एण्ड डिस्टिल्लीरिस प्रैवेट लिमिटेड ।
112	36843	मेसर्स ज्योतीस्वरी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
113	36850	मेसर्स कामनेट टेक्नालाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
114	36858	मेसर्स पालफ़ा डायरी प्रैवेट लिमिटेड
115	36879	मेसर्स लेविन पालिमर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
116	36889	मेसर्स फ़ूगल फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
117	36890	मेसर्स फ़ूगल क्रेडिट प्रैवेट लिमिटेड ।
118	36891	मेसर्स फ़ूगल इन्वेस्टमेन्ट कण्सल्टन्सी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
119	36892	मेसर्स फ़ूगल एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
120	36912	मेसर्स चेन्नै डालफ़िन बीच क्लब प्रैवेट लिमिटेड ।
121	36924	मेसर्स लक्सन एन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
122	36946	मेसर्स दक्षिण स्टील प्रैवेट लिमिटेड ।
123	36956	मेसर्स एसआरएस ग्राफ़िक्स पार्क प्रैवेट लिमिटेड ।
124	36959	मेसर्स नीमा फ़ारस्ट & फ़ार्मस इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
125	36982	मेसर्स फ़ैटलिफ़्ट ट्रावल एण्ड कार्गो प्रैवेट लिमिटेड ।
126	36983	मेसर्स शोबा आटो काम्पोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
127	36997	मेसर्स प्लास्टीविशन (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
128	37006	मेसर्स सिन-डी टूल्स (इण्डिया) लिमिटेड ।
129	37007	मेसर्स रेड्सन्स पेक्केजिंग इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
130	37010	मेसर्स जेयलक्ष्मी ठीक फ़ार्मस प्रैवेट लिमिटेड ।
131	37016	मेसर्स प्रणवम एक्सपोर्ट (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
132	37026	मेसर्स चेन्नै क्लोथिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
133	37028	मेसर्स श्री दुर्गा लाइज प्रैवेट लिमिटेड ।
134	37035	मेसर्स अल-फ़त्ता गोट फ़ार्म प्रैवेट लिमिटेड ।
135	37039	मेसर्स महा टेक्सटाईल्स लिमिटेड ।
136	37042	मेसर्स मारुती एयर लिफ़्ट चेन्नै प्रैवेट लिमिटेड ।
137	37043	मेसर्स इकोटेक (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
138	37046	मेसर्स पी.डी.आर. चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
139	37048	मेसर्स मद्रास फेक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
140	37063	मेसर्स सन्जीवी कण्सट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
141	37072	मेसर्स एस.एस.वी. सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
142	37074	मेसर्स ग्रीन क्रास एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
143	37083	मेसर्स आलबर्ट फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
144	37114	मेसर्स न्यू विन रियल एस्टेट प्रैवेट लिमिटेड ।
145	37119	मेसर्स चेन्नै वागीसन बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
146	37151	मेसर्स सिग्मा क्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
147	37152	मेसर्स पानी रिसार्ट्स & होटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
148	37154	मेसर्स जीन फूड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
149	37163	मेसर्स सुशान इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
150	37165	मेसर्स दासरी होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
151	37179	मेसर्स सप्तरिशी इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
152	37188	मेसर्स पिरमीड साफ्ट्वेयर प्रैवेट लिमिटेड ।
153	37196	मेसर्स सेल्वम & योगम फैनान्स लिमिटेड ।
154	37213	मेसर्स उज्ज्वल केरियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
155	37215	मेसर्स मेकट्राल असम्बिली सिस्टम्स एण्ड कण्ट्रोल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
156	37253	मेसर्स अजन्ता फैबरग्लास (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
157	37289	मेसर्स शण्मुगप्रिया चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
158	37296	मेसर्स यूसी इन्टरनेट प्रैवेट लिमिटेड ।
159	37301	मेसर्स टूट्टुकोरिन लक्ष्मी फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
160	37317	मेसर्स फिफ़्त जेन उसम काड आठोमेशन प्रैवेट लिमिटेड ।
161	37324	मेसर्स ट्रस्टवोर्ट होम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
162	37336	मेसर्स श्री चक्रा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर प्रैवेट लिमिटेड ।
163	37338	मेसर्स राणिपेट बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
164	37359	मेसर्स सभलाभ मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
165	37381	मेसर्स श्री जूपिटर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
166	37430	मेसर्स अय्यमपेट्टै बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
167	37446	मेसर्स डायनास्ट्री फौण्डेशन प्रैवेट लिमिटेड ।
168	37454	मेसर्स श्री अरोमा लक्ष्मी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
169	37471	मेसर्स चक्रराजा आठो काम्पोनेन्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
170	37475	मेसर्स टी एम एस एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
171	37478	मेसर्स मैका प्रापर्टीज़ इण्डिया लिमिटेड ।
172	37488	मेसर्स श्री शेशसाई आठो काम्पोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
173	37519	मेसर्स राडवीन मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
174	37523	मेसर्स सोलार शेएड नेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
175	37529	मेसर्स डेयज़ पाँवर लिमिटेड ।
176	37552	मेसर्स तमिलनाडु खोजन पाँवर लिमिटेड ।
177	37558	मेसर्स के एस आर एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
178	37559	मेसर्स टेक्नो सर्विसस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
179	37567	मेसर्स प्रणवम अग्रो प्राडेक्ट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
180	37570	मेसर्स स्प्रिंगफील्ड फ़लोरीटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
181	37579	मेसर्स इन्दिरा होम हाऊटपेशेन्ट एण्ड इन्द्राविनेस मेडीकेशन प्रैवेट लिमिटेड ।
182	37597	मेसर्स फोकस मार्केटिंग सर्विसस प्रैवेट लिमिटेड ।
183	37609	मेसर्स इन्टीग्रेटेड हास्पिटल्स एण्ड रिसर्च प्रैवेट लिमिटेड ।
184	37621	मेसर्स श्री करपगविनायगर फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
185	37634	मेसर्स काम-टेक (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
186	37636	मेसर्स बिस्मी एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
187	37695	मेसर्स रायल लिंग ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
188	37701	मेसर्स श्री साय बाबा शिपिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
189	37711	मेसर्स जी.के. मोठार्स फैनान्स (मतुरै) प्रैवेट लिमिटेड ।
190	37712	मेसर्स सकुरा सी फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
191	37719	मेसर्स मातलैस आयिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
192	37739	मेसर्स एससीई कण्सालीडेशन इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
193	37758	मेसर्स कन्दकोट्टम बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
194	37767	मेसर्स राउ & कम्पनी फार्मच्यूटीकल डीस्ट्रीब्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
195	37770	मेसर्स श्री गणेश अस्फालट प्रैवेट लिमिटेड ।
196	37772	मेसर्स आर्क हाऊसींग लिमिटेड ।
197	37778	मेसर्स ग्रीन कण्ट्री प्लान्टेशन लिमिटेड ।
198	37780	मेसर्स रुद्रा होटल्स एण्ड रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
199	37786	मेसर्स ग्रीन कण्ट्री प्रापर्टीस सर्विसस प्रैवेट लिमिटेड ।
200	37788	मेसर्स पीकाक कूरीयर्स सर्विसस लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	37804	मेसर्स मेगला एम.एस.पी. राजा विट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
202	37822	मेसर्स क्वेस्ट काल सेन्टर कम्बैन प्रैवेट लिमिटेड ।
203	37823	मेसर्स तरासु टीवी प्रैवेट लिमिटेड ।
204	37842	मेसर्स नागै उमा हाऊसींग प्रैवेट लिमिटेड ।
205	37851	मेसर्स पालर स्टील्स प्रैवेट लिमिटेड ।
206	37902	मेसर्स ऐ.सी.एन.साटीलैट & केबिल टीवी सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
207	37907	मेसर्स अदीष्टम फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
208	37908	मेसर्स वीन्डसर सत्यम् इन्जीनियरिंग (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
209	37925	मेसर्स बैट कम्प्यूटर अकादमी लिमिटेड ।
210	37951	मेसर्स डैलाग एक्सिम (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
211	37959	मेसर्स नीला साफ़वेयरर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
212	37963	मेसर्स फेतर टच एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
213	37967	मेसर्स ज़ेन वी एस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
214	38068	मेसर्स सिल्वर ब्रूक्स एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
215	38002	मेसर्स सीन इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
216	38009	मेसर्स अस्ट्रल हेल्थ सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
217	38018	मेसर्स कैज़न तिरापेटीक्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
218	38025	मेसर्स विश्वक फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
219	38035	मेसर्स ऐ.वी. फेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
220	38055	मेसर्स फौरनमी पाकेजिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
221	38091	मेसर्स रेमोल्ड मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
222	38092	मेसर्स आर एस एम कण्सल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
223	38109	मेसर्स खोनार्क सिविल कण्स्ट्रक्शन्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
224	38115	मेसर्स गणपति कण्स्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड ।
225	38116	मेसर्स कम्प्यूनेट इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी प्रैवेट लिमिटेड ।
226	38124	मेसर्स वी एस के हास्पिटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
227	38134	मेसर्स श्री सेवुगमूर्ती फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
228	38135	मेसर्स अरन्तै अम्बीका चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
229	38139	मेसर्स रियल प्लेशर कान्सेप्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
230	38143	मेसर्स मल्टी-परपस मान पॉवर कण्सल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
231	38147	मेसर्स चेन्नै प्लवर्स एण्ड प्लान्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
232	38148	मेसर्स अष्टलक्ष्मी पालीमर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
233	38149	मेसर्स सत्या साय एजेन्सीज़ (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
234	38150	मेसर्स प्रिमियर पब्लिशिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
235	38159	मेसर्स प्रोविन ओवरसीस ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
236	38165	मेसर्स वेट्ट्री फौन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
237	38169	मेसर्स प्रोपेल कण्ट्रोलस प्रैवेट लिमिटेड ।
238	38187	मेसर्स मसील फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
239	38202	मेसर्स एम.एम. इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
240	38203	मेसर्स पीपीजी प्रापरटीज़ प्रैवेट लिमिटेड ।
241	38207	मेसर्स निम्मदी फैनान्शियल सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
242	38250	मेसर्स ग्रीनफील्ड हेल्थ सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
243	38269	मेसर्स रामनाथपुरम् चित्रा चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
244	38293	मेसर्स सुधा शीरीश इन्टरनेट सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
245	38333	मेसर्स कलकस पेट्रोप्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
246	38334	मेसर्स होसूर रेसीडेन्ट्स क्लब लिमिटेड ।
247	38392	मेसर्स इन्वीन्सीबेल एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
248	38396	मेसर्स होजोन कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
249	38423	मेसर्स एसआरसी फेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
250	38436	मेसर्स तिरुवल्लूर आठो फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
251	38496	मेसर्स रामतिलगम् कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
252	38522	मेसर्स फास्को फरनीचर & इन्टीरियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
253	38557	मेसर्स एल सी मैनीग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
254	38584	मेसर्स राजा स्टेशनरी प्रिन्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
255	38608	मेसर्स के टी आर ऐस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
256	38645	मेसर्स इन्फोपॉवर कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
257	38654	मेसर्स कमिलियस एण्ड चन्द्रशेखर इन्जिनियरिंग कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
258	38688	मेसर्स मित्रा जया ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
259	38708	मेसर्स अनार वेन्चर कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
260	38747	मेसर्स वी & जी कम्बैन्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
261	38837	मेसर्स समुराय फीड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
262	38843	मेसर्स सिल्वरसेन्ड्स बीच रिसार्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
263	38853	मेसर्स वेर्साकाम इन्जिनियरिंग एण्ड सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
264	38883	मेसर्स पालस्टील फैनान्स लिमिटेड ।
265	38888	मेसर्स न्यू वेल्ड रिसार्ट्स (कोडै) प्रैवेट लिमिटेड ।
266	38930	मेसर्स न्यूवेव इन्फोसोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
267	38978	मेसर्स सवोयर-फैर इन्फरमेशन सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
268	39030	मेसर्स ग्लामोर बाट्री प्रैवेट लिमिटेड ।
269	39031	मेसर्स सेन्सोटेक इन्स्ट्रुमेन्ट इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
270	39046	मेसर्स एन्विरो-केर पोल्यूशन कण्ट्रोल इन्जिनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
271	39058	मेसर्स गलक्सी एलक्ट्रीकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
272	39082	मेसर्स श्री कोष्णमाल फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
273	39148	मेसर्स नेल्लै सन पब्लिशर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
274	39164	मेसर्स विवेकान्नदा कम्प्यूटर सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
275	39212	मेसर्स एसवी इम्पेक्स ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
276	39231	मेसर्स पञ्चाजन्यम् इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
277	39242	मेसर्स गोकुलम् डिपार्टमेन्ट स्टोर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
278	39243	मेसर्स पान ट्रोसर्स लिमिटेड ।
279	39250	मेसर्स उषालया फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
280	39256	मेसर्स राजा बिबरेज इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड ।
281	39277	मेसर्स इन्दयात्रा टूर्स एण्ड ट्रावल्स लिमिटेड ।
282	39288	मेसर्स कबा सेफ़ लाक्कर्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
283	39307	मेसर्स मलर फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
284	39319	मेसर्स प्रियदर्शनी टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
285	39349	मेसर्स ए.ए.पी. फेशन प्रैवेट लिमिटेड ।
286	39351	मेसर्स गणेश कानसेप्ट्स एण्ड क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
287	39361	मेसर्स एम आर जी साफ्ट्वेयर इन्फर्मेशन सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
288	39362	मेसर्स सुप्रीम टेप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
289	39367	मेसर्स रुबी साफ्ट्वेयर प्रैवेट लिमिटेड ।
290	39370	मेसर्स रीप मार्केटिंग सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।



क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
291	39380	मेसर्स डिजी नेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ।
292	39385	मेसर्स प्रोविडेन्शियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
293	39387	मेसर्स जेएलएएम मार्केटिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
294	39402	मेसर्स एस.आर.एन. मेनेजमेन्ट कण्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
295	39414	मेसर्स रीलीसर हलाल बिस्नेस प्राइवेट लिमिटेड ।
296	39417	मेसर्स प्रेन्ड्स बिस्नेस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ।
297	39418	मेसर्स मट्टा एयरकान प्राइवेट लिमिटेड ।
298	39425	मेसर्स सरस फेशन्स & कास्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
299	39440	मेसर्स विर्गो सिन्टेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
300	39446	मेसर्स सभा डिपार्टमेन्ट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
301	39459	मेसर्स कास्टप्लस इम्पोर्ट & एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ।
302	39471	मेसर्स मस्त लन्का (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
303	39472	मेसर्स लैट रूफ प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
304	39475	मेसर्स तोताद्री फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड ।
305	39492	मेसर्स न्यू पाक प्राइवेट लिमिटेड ।
306	39502	मेसर्स श्री आनन्द टी.ए. कण्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
307	39503	मेसर्स टरनींग पाईट केरियर आफ़रशेन्स एण्ड एचआरडी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
308	39507	मेसर्स ए.एच.एन. मेनेजमेन्ट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
309	39512	मेसर्स एस.एस.आर.एस. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
310	39515	मेसर्स एक्सपीएम आठोमेशन प्राइवेट लिमिटेड ।
311	39527	मेसर्स ट्रै कलर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
312	39529	मेसर्स कनस्ट्रक्शन इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड ।
313	39538	मेसर्स श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी बिल्डर्स & डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
314	39544	मेसर्स स्पार्टन एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड ।
315	39559	मेसर्स विन्लाण्ड प्रापर्टी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
316	39560	मेसर्स विन्लाण्ड हार्टीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड ।
317	39579	मेसर्स बेकमर्स मेनेजमेन्ट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
318	39588	मेसर्स ग्रेस रेसीडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड ।
319	39590	मेसर्स मूशीका चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
320	39592	मेसर्स कामेटीक प्राइवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
321	39604	मेसर्स ढीढार स्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
322	39620	मेसर्स सास्था प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
323	39632	मेसर्स अकास निटवेयर प्रैवेट लिमिटेड ।
324	39634	मेसर्स तमिलनाडु बिल्डींग लैम्स एण्ड लैम केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
325	39636	मेसर्स रिशीका पाकेजींग प्रैवेट लिमिटेड ।
326	39648	मेसर्स भरनी हास्पीटालीटी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
327	39666	मेसर्स एनेस्के पाँवर लिमिटेड ।
328	39668	मेसर्स भैरवी स्टूडियोस प्रैवेट लिमिटेड ।
329	39694	मेसर्स अम्मन फुड्स एण्ड स्पैसस प्रैवेट लिमिटेड ।
330	39706	मेसर्स है-टेक कम्यूनिकेशन्स & साफ़्टवेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
331	39713	मेसर्स एस.एम.ए. मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
332	39723	मेसर्स कानजेन फैबर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
333	39728	मेसर्स कान्फिडेन्स बेनिफिट फण्ड (मण्णगुडी) लिमिटेड ।
334	39732	मेसर्स डिसेन्सपार्क टेक्नोलॉजिस प्रैवेट लिमिटेड ।
335	39734	मेसर्स एस.ए.ए. द्रावल होम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
336	39752	मेसर्स सीईजी इन्जीनियरिंग सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
337	39754	मेसर्स क्रिस्टल कारगो एजेन्सिस प्रैवेट लिमिटेड ।
338	39763	मेसर्स कनकधारा कण्ठ्युमर प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
339	39765	मेसर्स राणीपेठ गौरीलक्ष्मी चिट फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
340	39788	मेसर्स इ.एस. मैदीन दुभाको कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
341	39819	मेसर्स डाक्टर्स कार्डियक केर सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
342	39828	मेसर्स प्रोडिजी कम्प्यूटर्स एण्ड कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
343	39832	मेसर्स सत्यसाई राम ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
344	39835	मेसर्स सिवा विष्णु रेक्रूटमेन्ट सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
345	39841	मेसर्स सा मेटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
346	39844	मेसर्स एस.के. अलुमिनियम फाब्स प्रैवेट लिमिटेड ।
347	39868	मेसर्स साम्सन स्टोनेक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
348	39878	मेसर्स कृष्णास डेवल्लिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
349	39894	मेसर्स हिन्दुस्तान होम नीड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
350	39919	मेसर्स सिस्बान डेन्टल स्पेशलिटीस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
351	39922	मेसर्स वोर्क वेयर एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
352	39938	मेसर्स मैसाक्स एक्सीम प्रैवेट लिमिटेड ।
353	39940	मेसर्स श्री विजयलक्ष्मी मोठार्स एण्ड ट्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
354	39943	मेसर्स पन्छमी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
355	39988	मेसर्स सुरभी एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
356	39989	मेसर्स एक्सप्रेसनस मार्केटिंग सर्वीस प्रैवेट लिमिटेड ।
357	40011	मेसर्स वज्रम है-टेक क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
358	40022	मेसर्स ईस्ट कोस्ट गारनेट एण्ड अभ्रसिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
359	40032	मेसर्स अग मापटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
360	40084	मेसर्स फ्रैगोसन इन्जीनर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
361	40110	मेसर्स अरिवु मैक्रोसिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
362	40113	मेसर्स एफ.आर.एफ. लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
363	40121	मेसर्स प्ले डी'सैन गेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
364	40134	मेसर्स शंकर अळगु इल्लम् बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
365	40137	मेसर्स राकफोर्ट प्लान्टेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
366	40188	मेसर्स टारुस फुड्स एण्ड स्पैस प्रैवेट लिमिटेड ।
367	40215	मेसर्स अलैड इन्फरमेटीक्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
368	40252	मेसर्स ईगल स्टीवेठोर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
369	40263	मेसर्स ओवरलाण्ड टेक्नालाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
370	40267	मेसर्स फ़ोरवेस कोरियर-पाक & कारगो प्रैवेट लिमिटेड
371	40279	मेसर्स आहा अग्रो फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
372	40301	मेसर्स बी.डी.गोयेंका अबन सिटी सेन्टर कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
373	40303	मेसर्स वेरस्टान्ड इन्टेलिजेन्स & टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
374	40311	मेसर्स राजेश स्टेयिन्लेस प्रैवेट लिमिटेड ।
375	40318	मेसर्स ब्लू फेरल क्लब एण्ड रिसोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
376	40335	मेसर्स कम्फोर्ट प्रोपर्टिस प्रैवेट लिमिटेड ।
377	40364	मेसर्स बी.एम.जी. स्कोयर फार्म & प्रोपर्टिस प्रैवेट लिमिटेड ।
378	40373	मेसर्स बोहिमिया हाउस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
379	40381	मेसर्स एल.एम.एस.आरगानिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
380	40393	मेसर्स प्लेक्सकोरड अलाय्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
381	40420	मेसर्स टैटानिक एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
382	40421	मेसर्स टारुस फौन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
383	40426	मेसर्स टारुस अद्वरटैसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
384	40428	मेसर्स गुडलक टैप फौन्ड्री प्रैवेट लिमिटेड ।
385	40445	मेसर्स राजवी अग्रो-टेक प्रैवेट लिमिटेड ।
386	40454	मेसर्स अमर हेल्थ केर प्रैवेट लिमिटेड ।
387	40455	मेसर्स अमर क्लिनिकस प्रैवेट लिमिटेड ।
388	40464	मेसर्स स्वेल प्राजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
389	40472	मेसर्स लीमी एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
390	40492	मेसर्स इन्सट्रुमेन्ट इन्नावेशनस एण्ड मार्केटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
391	40502	मेसर्स पी.एस.इन्डस्ट्रियल काम्पोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
392	40503	मेसर्स सुप्रीम टैरेक्ट मार्केटिंग सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
393	40523	मेसर्स सामा प्रोपरटी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
394	40530	मेसर्स क्यू प्रिट्ज़ इन्टरअक्टिव लेर्निंग प्रैवेट लिमिटेड ।
395	40533	मेसर्स हचिवमेन्ट फैनान्शियल सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
396	40536	मेसर्स पिएसजी कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
397	40539	मेसर्स एस पी एम एक्ज्यूपमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
398	40558	मेसर्स सीक्यूल सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
399	40568	मेसर्स टी.एच.ए. इन्टिरियर डिज़ेनर्स एक्सिक्युशनर्स & अप्प्रेसर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
400	40570	मेसर्स कल्सर मार्केटिंग एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
401	40574	मेसर्स बालाम्भीगै चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
402	40579	मेसर्स एक्लक्टीका इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
403	40594	मेसर्स साविट्री रिसोर्सस प्रैवेट लिमिटेड ।
404	40595	मेसर्स श्री बाग्यलक्ष्मी इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड ।
405	40619	मेसर्स दर्शन सिनि लाब प्रैवेट लिमिटेड ।
406	40626	मेसर्स खालिड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
407	40636	मेसर्स होटल विश्रन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
408	40637	मेसर्स काँपर फाइल इन्डिया लिमिटेड ।
409	40641	मेसर्स राजम्स केफ़ प्रैवेट लिमिटेड ।
410	40642	मेसर्स एसटीएस आफ़शोर सर्वीसस (इन्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
411	40647	मेसर्स श्री अरुणाचलेशवरर् डैरी फार्म प्रैवेट लिमिटेड ।
412	40648	मेसर्स एस.जे.एस. कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
413	40652	मेसर्स विणलाण्ड क्रियेटिव प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
414	40668	मेसर्स जानचेल कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
415	40681	मेसर्स अमर पयो-मेडिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
416	40683	मेसर्स अमर कारडियक केर सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
417	40699	मेसर्स पो लियन ट्रेनिंग & मनेजमेन्ट (इन्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
418	40706	मेसर्स पी.एम.आर. फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
419	40715	मेसर्स एस्टीम टेक इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
420	40727	मेसर्स एमएसबी इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
421	40729	मेसर्स पिल्लर ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
422	40731	मेसर्स खोकुसै हेल्थ केर प्रैवेट लिमिटेड ।
423	40737	मेसर्स तन्जाऊर कण्णैया चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
424	40757	मेसर्स एम.जे. रियल एस्टेट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
425	40764	मेसर्स गोल्ड आर्क डेवलप्परस प्रैवेट लिमिटेड ।
426	40768	मेसर्स मिदाली फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
427	40773	मेसर्स एबिसलिग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
428	40795	मेसर्स इन्वाल हास्पिटेल प्रैवेट लिमिटेड ।
429	40800	मेसर्स एम.बी.सी. टूरस एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
430	40802	मेसर्स एमबीसी रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
431	40816	मेसर्स डीसीएफसी शिपिंग & फारवर्डिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
432	40819	मेसर्स जेडिऐ कणस्ट्रक्शन् प्रैवेट लिमिटेड
433	40829	मेसर्स साद्वा बिसिनेस सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
434	40836	मेसर्स साम खोटिंग सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
435	40843	मेसर्स तिलकम् पावर इन्फ्रा लिमिटेड ।
436	40855	मेसर्स करीम्स होटल सप्लिअस & सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
437	40861	मेसर्स अरिस्टोग्राट् होल्डीग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
438	40903	मेसर्स पिवाट साफ्टवेर सोल्यूशन प्रैवेट लिमिटेड ।
439	40919	मेसर्स केएस फेब्रीक्स एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
440	40961	मेसर्स एयरब्रीट्ज़ सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
441	40979	मेसर्स एमएसके मेडिकल लाबोरेटोरिस प्रैवेट लिमिटेड ।
442	40988	मेसर्स सिंगपूर पिल्लींग इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
443	40999	मेसर्स जेमनेट इन्फोटेक इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
444	41018	मेसर्स कुमार राजन रिरोलिंग मिल प्रैवेट लिमिटेड ।
445	41028	मेसर्स अरुद्रा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
446	41030	मेसर्स इस्ट हैट्स इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
447	41035	मेसर्स प्राक्टीकल टेक्नोलाजी इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
448	41039	मेसर्स स्टारेक्स सेक्यूरिटी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
449	41049	मेसर्स सुमी हैटेक एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
450	41053	मेसर्स टीम कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
451	41064	मेसर्स श्री देवी प्लान्टेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
452	41066	मेसर्स नाक प्लान्टेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
453	41072	मेसर्स पीएमपी मरैन एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
454	41075	मेसर्स टेक्कान रिफ़ैनेटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
455	41084	मेसर्स नागारजूना एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
456	41086	मेसर्स जोडियाक क्रिस्टल क्वाटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
457	41109	मेसर्स एक्यू इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड ।
458	41131	मेसर्स कनट्रे फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
459	41134	मेसर्स समारिटन सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
460	41137	मेसर्स श्री कण्णन हास्पिटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
461	41157	मेसर्स चेन्नै केरवेल फ़ेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
462	41185	मेसर्स एड्डीइ एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
463	41209	मेसर्स सुपरफ़ैन इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
464	41213	मेसर्स विवेकानन्दा पिकचरस प्रैवेट लिमिटेड ।
465	41215	मेसर्स सिटी सबरब्स एस्टेट्स लिमिटेड ।
466	41216	मेसर्स पापु टेक्सटाइल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
467	41219	मेसर्स जननी स्टील प्रैवेट लिमिटेड ।
468	41220	मेसर्स एनवीएस कम्प्यूटर सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
469	41230	मेसर्स ब्लूओशन साफ़्ट्वेयर सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
470	41243	मेसर्स एलवी एरो फ़ैगो प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
471	41259	मेसर्स स्टान्लि फैनान्शियल सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
472	41273	मेसर्स डेविट् क्युग्ली मीशिनरी (इन्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
473	41279	मेसर्स गुडील हौसिंग प्रोमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
474	41305	मेसर्स पिलसन पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
475	41332	मेसर्स पीसिसि पावर लिमिटेड ।
476	41337	मेसर्स मैलस्टोन वेन्चेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
477	41345	मेसर्स सेक लाब्स लिमिटेड ।
478	41352	मेसर्स वासटेक कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
479	41353	मेसर्स प्रिन्सेस इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
480	41378	मेसर्स गोन्ग् सियान्ग् ओटिटिसी इन्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
481	41385	मेसर्स लैशोर अड्वेन्चर कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
482	41401	मेसर्स डी.एस.आगो टेक्निका इन्जीनर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
483	41403	मेसर्स आनन्त एजुकेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
484	41412	मेसर्स प्लैयिंग टैकर्स ट्रावल्स एण्ड कारगो प्रैवेट लिमिटेड ।
485	41417	मेसर्स एल्कारो टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
486	41434	मेसर्स पाल्'स वॉन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
487	41437	मेसर्स प्रोफेशनल हेड्-एण्ड् सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
488	41443	मेसर्स वीनटेक टरपो सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
489	41473	मेसर्स कण्णा रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
490	41487	मेसर्स मिठास इन्टरनेट सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
491	41497	मेसर्स यूवर'स हेर प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
492	41498	मेसर्स स्टालियन जेनरेटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
493	41502	मेसर्स प्राडम टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
494	41522	मेसर्स नेक्सट्जेन वेन्चर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
495	41534	मेसर्स करूर इन्फोनेट सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
496	41554	मेसर्स आन्लैन इन्फरमेशन टेक्नालाजी चेन्नै प्रैवेट लिमिटेड ।
497	41564	मेसर्स ऐडियल सोरसिंग एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
498	41604	मेसर्स विण्डेर पावर लिमिटेड ।
499	41608	मेसर्स यूनिरायल सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
500	41652	मेसर्स एलएमसी क्लोशर्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
501	41669	मेसर्स इनबोल साफ़्ट्वेयर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
502	41679	मेसर्स राम्जी आडियो & विडियो प्राइवेट लिमिटेड ।
503	41687	मेसर्स एन.आर. मल्टी प्रेस प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
504	41688	मेसर्स वेटेरण सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
505	41695	मेसर्स एच.एम.एस.के. मेटल प्राइवेट लिमिटेड ।
506	41711	मेसर्स ईश्वरी ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड ।
507	41739	मेसर्स टिएचटि कम्यूनिकेशन लिमिटेड ।
508	41757	मेसर्स अण्णै मिल्क & डैरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
509	41763	मेसर्स कारवे डैरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
510	41768	मेसर्स जेण आफ़िस एक्स्प्लेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
511	41769	मेसर्स ऐडिडि इन्डियम् प्राइवेट लिमिटेड ।
512	41806	मेसर्स लाण्ड मार्क गोल्ड सप्पलैस प्राइवेट लिमिटेड ।
513	41810	मेसर्स हैसि'स एक्सपो इम्पो प्राइवेट लिमिटेड ।
514	41815	मेसर्स लटेराल साफ़्ट्वेयर टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड ।
515	41822	मेसर्स सर कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
516	41829	मेसर्स जाकुवार फैयर फ़ोरस प्राइवेट लिमिटेड ।
517	41839	मेसर्स कपोवि फ़ुड्स प्राइवेट लिमिटेड ।
518	41853	मेसर्स रोहिणी ओईल्स प्राइवेट लिमिटेड ।
519	41858	मेसर्स इन्प्राटेक्नो कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
520	41908	मेसर्स आरुर हारगानिक आग्रो प्राइवेट लिमिटेड ।
521	41914	मेसर्स वाण सून कणस्ट्रक्शन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
522	41917	मेसर्स एफ़एमएल एक्सपोर्ट कणसालिटेशन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
523	41920	मेसर्स चेन्नै साय इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
524	41932	मेसर्स अरविन्ड पावर कणवेरटेरस प्राइवेट लिमिटेड ।
525	41935	मेसर्स एसआरबी बिल्डर्स लिमिटेड ।
526	41939	मेसर्स इन्डस लाजिस्टिक लिमिटेड ।
527	41953	मेसर्स डेलिजेन्ट कम्प्यूटर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
528	41969	मेसर्स जेई एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
529	41992	मेसर्स प्लासप्रो पालिवेक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
530	42020	मेसर्स स्नेरजी ट्रिन्सक्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड ।



क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
531	42026	मेसर्स निला चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
532	42032	मेसर्स आरएमएम फेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
533	42041	मेसर्स हरीहरा सुदन एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
534	42050	मेसर्स प्लासमो पेटकेम प्रैवेट लिमिटेड ।
535	42051	मेसर्स एक्सलेन्ट सीविंग टेक्निस प्रैवेट लिमिटेड ।
536	42063	मेसर्स नोडल एनरजी वोल्ड सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
537	42067	मेसर्स एस.ए.पी. मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
538	42073	मेसर्स एपीएस इन्टरफेस सोल्यूशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
539	42075	मेसर्स सहारा न्यूट्रिशन प्रैवेट लिमिटेड ।
540	42104	मेसर्स डोमिनिक एफ़आरपी प्रैवेट लिमिटेड ।
541	42109	मेसर्स सीटीआर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
542	42152	मेसर्स चेन्नै जूट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
543	42159	मेसर्स सीपोरट् एन्टरप्राइसस प्रैवेट लिमिटेड ।
544	42185	मेसर्स राघवा रोडवेस प्रैवेट लिमिटेड ।
545	42214	मेसर्स स्मार्ट-एटी प्रोफेशनल्स लिमिटेड ।
546	42217	मेसर्स इलाही सिविल असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
547	42222	मेसर्स अकामा डिजैनवेर प्रैवेट लिमिटेड ।
548	42267	मेसर्स विण्को सेक्यूरिटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
549	42280	मेसर्स शण्मुगा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
550	42285	मेसर्स विजया इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
551	42293	मेसर्स केर पाइन्ट अडिक्शन रीचर्च सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
552	42338	मेसर्स एल्वी सिस प्रैवेट लिमिटेड ।
553	42362	मेसर्स विनायका न्यूस वोल्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
554	42369	मेसर्स गुरु क्रुबा असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
555	42371	मेसर्स इन्सटिट्यूट आफ़ साफ़्टवेर टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड ।
556	42419	मेसर्स जेय कुमारण आग्री बेस प्रैवेट लिमिटेड ।
557	42422	मेसर्स किडस & कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
558	42445	मेसर्स मोरै टेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
559	42455	मेसर्स सत्या मानपॉवर प्रैवेट लिमिटेड ।
560	42465	मेसर्स सैट्स टेक्नोलाजिस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
561	42491	मेसर्स मेट्रो क्लियरिंग & फारवेडिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
562	42493	मेसर्स अडवान्सडु ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फार इन्फरमेशन टेक्नोलाजीस लिमिटेड ।
563	42508	मेसर्स इन्ट्रेट एन्टरप्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
564	42512	मेसर्स रम्या ज्यो इन्फरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
565	42528	मेसर्स पोप्पी कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
566	42531	मेसर्स क्लीन लिविंग लाण्ड्रि सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
567	42533	मेसर्स क्रीनहान्स कणस्ट्रक्शन् प्राइवेट लिमिटेड ।
568	42545	मेसर्स मेडुकेशनल स्कील्स, टूल्स & टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड ।
569	42556	मेसर्स जेयलक्ष्मी वॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
570	42560	मेसर्स लण्चेड एक्सिम सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
571	42569	मेसर्स मेक्काले नीट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
572	42580	मेसर्स बालसुभ्रमणियण एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड ।
573	42590	मेसर्स चेन्नै इयर्थ मुविंग एण्ड आठो पाट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
574	42592	मेसर्स मेटिफन अप्प्रेसिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
575	42593	मेसर्स प्रोमेन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड ।
576	42601	मेसर्स सौथसेफ़ पावर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
577	42605	मेसर्स जेड्डा मेर्गन्डेल प्राइवेट लिमिटेड ।
578	42613	मेसर्स आक्सफोर्ड मिडिया (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
579	42620	मेसर्स निमल पयोटेक प्राइवेट लिमिटेड ।
580	42633	मेसर्स विण्विण टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड ।
581	42643	मेसर्स एडुसोरस स्टूडन्ट्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड ।
582	42648	मेसर्स अगैन टेक्नोलाजीस (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
583	42649	मेसर्स तोळिल उलगम् पप्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
584	42651	मेसर्स अकनडीथा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
585	42652	मेसर्स वी स्कै बिल्डर्स & कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
586	42654	मेसर्स एएसए इन्फोसाफ़्ट प्राइवेट लिमिटेड ।
587	42660	मेसर्स आग्राजूर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ।
588	44257	मेसर्स मारस साफ़्टवेर एम्बिलाईस वेल्फेर फौन्डेशन ।
589	46247	मेसर्स ओल्ड पारन्ट्स केरटेकिंग आरगनैसेशन प्राइवेट लिमिटेड ।
590	51252	मेसर्स रवीसा हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड ।

एस. मीनाक्षी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडू

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 21st June 2007

No. A-60011/8/2005-Admn.I.—In partial modification of earlier Notification dated 9th April 07 in terms of Section 19 and as provided under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officer of the Union Public Service Commission is hereby designated as Central Public Information Officer in respect of the specific subject matters mentioned against his name :—

Name of the CPIO	Subject matter	Telephone No.	Name of concerned Appellate Authority
Sh. K.S. Bariar, DS(EA)	All matters pertaining to Civil Services Examinations, Policy matters regarding Examination, matters related to Confidential Branch.	23383052	Sh. V.P. Singh, Joint Secretary (E)

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 4th July 2007

No. DP/Pers.I/2007/134/3/98/2004.—Shri K. L. Sethi relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

SURINDER MOHAN  
Administrative Officer (Pers.)

New Delhi-110003, the 4th July 2007

No. DP/Pers.I/2007/136/3/34/2002.—Shri D. K. Choudhary relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 22nd June 2007

No. 2/18/07-Admn./60341.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Paritosh Sarkar, Assistant in the Commission as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad-hoc basis with effect from 11.06.2007 (F/N) till 14-08-2007 or till further orders, whichever is earlier.

SATVINDER SINGH  
Under Secy. (Admn.)  
for Central Vigilance Commission

New Delhi, the 9th July 2007

No. 2/21/07-Admn./61667.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Surjit Singh, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 15.06.2007 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

P. M. PILLAI  
Officer on Special Duty (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 29th June 2007

No. 15011/11/2007-Estt.—Smt. Bhawana Abhay Porwal, Hindi Instructor of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, is appointed as Hindi Instructor in the SVP National Police Academy, Hyderabad, on deputation, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (plus 15% of basic pay as training allowance and DA, HRA, CCA & TA as admissible from time to time) for a period of three years or until further orders whichever is earlier with effect from the forenoon of June 21, 2007, on usual terms and conditions.

Dr. G. S. RAJAGOPAL  
Director

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 3rd July 2007

No. P. III-2/2007-Pers-3.—Consequent on their promotion to the post of Administrative/Section Officer, the following Subedar Major/Office superintendents have taken over charge as Administrative/Section Officer in the Offices and dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge
1	2	3	4
1.	Shri P. P. Sastry, Adm. Officer IRLA-7245	O/o. Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Bhubaneswar.	01.06.2007 (FN)
2.	Shri K. A. Ghani, Adm. Officer IRLA-7257	O/o. IGP, Southern Sector, CRPF, Hyderabad.	01.06.2007 (FN)
3.	Shri Rajsekhar Dhar, Adm. Officer IRLA-7247	O/o. Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Siliguri.	02.06.2007 (FN)

1	2	3	4
4.	Shri Sibnath Roy, Adm. Officer IRLA-7259	O/o. Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Silchar.	07.06.2007 (FN)
5.	Shri K. G. Devrajan, Adm. Officer IRLA-7277	O/o. Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, New Delhi.	23.06.2007 (FN)

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIG (Pers-III)

#### DIRECTORATE GENERAL

#### CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 28th June 2007

No. E-16013/(1)/99/Pers.I/Vol-I/1675.—On repatriation to parent cadre, Shri R. P. Thakur, IPS (AP : 1986), Deputy Inspector General relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General, CISF (EZ) HQrs., Patna in the afternoon of 12.06.2007.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Genl.  
CISF

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

#### OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 5th July 2007

No. 4123-GE-I/13-2006.—The following IA & AS officers have retired on superannuation/retired voluntarily from Government service from the date shown against their names :—

S/Shri

1. K. G. Mahalingam	Retired on superannuation wef. 30-06-2007 (AN)
2. P. K. Jena	Retired voluntarily wef. 01.06.2007 (FN)
3. J. D. Sahai	Retired on superannuation wef. 30.06.2007 (AN)
4. M. R. Khare	Retired on superannuation wef. 30.06.2007 (AN)
5. Y. R. Rangari	Retired on superannuation wef. 30.06.2007 (AN)

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

#### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 9th July 2007

No. WM-I/Estt./67.—Under the order of the Accountant General (A&E), West Bengal the following Gr-II Divisional Accounts Officers are hereby promoted as Grade-I Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the temporary and officiating capacity with effect from the date of assumption of charges as D.A.O-I in the present Divisions noted against their names until further order. They will be on probation for a period of 2(Two) years from the date of promotion :—

Such promotions are in the interest of the public service.

Sl. No.	Name	Name of divisions
1.	Shri Arunava Maity	Central Division (Housing, Bricks Production.
2.	Shri Asok Kumar Roy	Birbhum PHE Division.

The above named Officers may submit their option under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Divisional Accounts Officer Gr-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant Genl.,  
(Accounts)

#### MINISTRY OF MINES

#### GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 25th April 2007

No. 777A/A-19012/(4-TS)/97/19B.—Sri Tapas Sadhya, Driller Grade-I, retired voluntarily from Government service with effect from 01-03-2007 (FN) under rule 48A of CCS (Pension) Rules 1972.

D. T. SYIEMLEH  
Dir (P & A)  
for Dir. Genl.

#### SURVEY OF INDIA

#### SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 3rd July 2007

No. C-2791/724/-SOS(A)(1).—The undermentioned Group 'C' Stores Assistant is hereby promoted as Assistant Stores Officer (G.C.S. Group 'G' Post) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 5,500-175-9,000/- on regular basis with effect from the date as shown against his name :—

Name	Date of Promotion
Shri K. Satyanarayana	26-04-2007

M. GOPAL RAO  
Major Genl.  
Surveyor Genl. of India

## MINISTRY OF EARTH SCIENCES

## INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

O/o. THE DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY

New Delhi-110003, the 19th June 2007

No. A-32013(DIR)/18/2004-E.I.—The President is pleased to appoint the undermentioned Meteorologists Grade I of India Meteorological Department as Directors (Scale Rs. 12,000—16,500/-) in an officiating capacity in the same department with effect from the dates indicated against their names below :—

S. No.	Name	Date from which appointed as Director
	(S/Shri)	
1.	R. P. Uniyal	18-10-2006 (A/N)
2.	N. P. Bhatnagar	07-03-2007 (A/N)
3.	L. A. Siddiqui	22-02-2007 (A/N)
4.	V. L. Prasada Rao	20-10-2006
5.	C. M. Puranik	18-10-2006 (A/N)
6.	V. M. Yunus	03-05-2007
7.	C. L. Gautam	18-10-2006 (A/N)
8.	Vinod Kumar	19-10-2006
9.	R. D. Ram	18-10-2006 (A/N)
10.	Mannu Ram	18-10-2006 (A/N)
11.	M. Duraisamy	19-10-2006
12.	Shiv Ganesh	31-10-2006
13.	A. J. Mathew	03-11-2006
14.	B. K. Biswas	19-10-2006
15.	M. L. Sahu	20-10-2006
16.	A. K. Chakraborty	15-03-2007
17.	K. Seetharam	08-11-2006

ANSHULI ARYA

Dy. Dir. Genl. of Meteorology  
(Administration & Stores)  
for Dir. Genl. of Meteorology

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 2nd July 2007

Ref: 1(1)/2005/Adm-II/2007/5917.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri A. D. Raul, Sr. Clerk, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 09-04-2007(FN) to 09-05-2007(AN).

V. SASIDHARAN

Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 2nd July 2007

Ref: PD/11(2)/2007-R-III/07/5907.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. K. Bhagavathy, Assistant Accountant, as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 07.05.2007(FN) to 15.06.2007(AN).

D. DASARATHAN

Dy. Establishment Officer

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

## BOARD OF RADIATION &amp; ISOTOPE TECHNOLOGY

Mumbai-400705, the 27th June 2007

No. BRIT/T/115/46.—The Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology appoints Shri A. B. Kamble, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer on ad-hoc basis in this Unit from 16.12.2006(FN) to 25.01.2007(AN) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-.

O. BHARATHAN

Administrative Officer-III

## DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 3rd July 2007

No. A-19011/19/1/1998-E-II.—Consequent upon his inclusion in the Junior Administrative Grade of the Indian Statistical Service (ISS) vide Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi Office Order No. 12016/4/JAG (ad-hoc)/05-06/2005-ISS dated 15-06-2007, the President is pleased to appoint Shri Purushotam Lal, Deputy Director in the Office of the Director General of Civil Aviation to the grade of Joint director (ISS) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon 18-06-2007 and until further orders.

RAVINDRA KUMAR

Dy. Dir. of Administration

## INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 4th July 2007

No. F.48-Ad(AT)/2007.—Shri B. L. Hirve, Assistant Registrar, Income-tax appellate Tribunal, Jabalpur Bench, Jabalpur retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 2007.

VIMAL GANDHI

President

No. F.301-Ad(AT)/2007.—Shri D. Somasundaram, Personal Assistant, Central Govt. Industrial Tribunal cum Labour Court, Chennai is appointed to officiate as Private

Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 18.06.2007(F.N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-Ad(AT)/2007.—Shri E. D. Tirodkar, Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Chandigarh Benches, Chandigarh (Hqr. at Mumbai), retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

VIMAL GANDHI  
President

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

##### O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Ganga Industries Limited

Kanpur-208001, the 4th July 2007

No. LC/560(3)/20-0012042/584.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date of the name of M/s. Ganga Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. S. S. Auto Product Private Limited

Kanpur-208001, the 10th July 2007

No. LC/560(3)/20-0013281/616.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date of the name of M/s. S. S. Auto Product Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act 1956 and of the following Companies

Jalandhar, the 4th July 2007

No. SES/2005/560/422.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies shall be dissolved :—

S. No.	Company	Name of the Company
1	2	3
1.	13039	M/s. JIO Dairy Products Private Limited
2.	30298	M/s. Alpha Outsourcing Services Private Limited
3.	22009	M/s. Jhanjee Hospital Private Limited
4.	27237	M/s. T. K. Games Private Limited
5.	29243	M/s. Diksha Project Developers Private Limited
6.	29244	M/s. River Dale Infrastructures Private Limited
7.	27324	M/s. Riwaaz Fashions Private Limited
8.	15982	M/s. Gurdev Steel Roll Mills Private Limited
9.	13723	M/s. M. S. Advances Private Limited

K. C. MEENA  
Asstt. Registrar of Companies  
Punjab, HP & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Mountain Valley Dairies Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1307/609.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mountain Valley Dairies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Udampur Cattle And Poultry Feeds Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1215/610.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Udampur Cattle And Poultry Feeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mayur Food Industries Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/622/616.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mayur Food Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chandra Bhaja Engineers Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1230/622.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chandra Bhaja Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Thee Patni Choice Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1306/634.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hotel Thee Patni Choice

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Enn And Enn Builders Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1670/640.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Enn And Enn Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ravi Roller Flour Mills Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1216/646.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ravi Roller Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kashmir Spices Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1279/652.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kashmir Spices Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tawi Flour Mills Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/1549/658.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tawi Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. P. Marbles Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/744/664.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. N. P. Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oswal Builders Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/925/670.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Oswal Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharda Farms And Industries Private Limited

Jammu, the 29th June 2007

No. 560(3)/2007/645/678.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sharda Farms And Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhipriya Granites Private Limited

Ahmedabad-380013, the 2nd July 2007

No. 04-25371/ROC/JTA/(KH)U/s 560(3)/2007/3774.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Abhipriya Granites Private Limited unless cause is shown is contrary, the name of the company will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. GLFL Asset Management Limited

Ahmedabad-380013, the 3rd July 2007

No. 04-29500/ROC/JTA/(KH)U/s 560(3)/2007/3790.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. GLFL Asset Management Limited unless cause is shown is contrary, the name of the company will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

P. I. MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Ahmedabad-380013, the 3rd June 2007

No. ROC(GUJ)JTA/(KH)SES 25/2007.—Notice is hereby given under Section 560(5) of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Companies, and the said Companies are stand dissolved :—

Sl. No.	Regn. No. of the Company	Name of the Company
1	2	3
01.	04-37961	M/s. Parmesh Beverages Pvt. Ltd.
02.	04-19109	M/s. Payal Developers Pvt. Ltd.
03.	04-28772	M/s. Parshwa Pauwa & Rice Mill Pvt. Ltd.
04.	04-23889	M/s. Poonam Investment and Management Consultancy Pvt. Ltd.
05.	04-14762	M/s. Prakash Rayons Pvt. Ltd.
06.	04-06739	M/s. Raghvani Polymarbles Pvt. Ltd.
07.	04-35119	M/s. Pananet Solutions Pvt. Ltd.



1	2	3
08.	04-31602	M/s. Ramaben Monetary And Marketing Services Pvt. Ltd.
09.	04-42127	M/s. Rishi Tradelink Pvt. Ltd.
10.	04-22956	M/s. Ramkrishna Texturisers Pvt. Ltd.
11.	04-30318	M/s. Raksha Finlease Pvt. Ltd.
12.	04-36393	M/s. Radukrishn Factors Pvt. Ltd.
13.	04-38605	M/s. Royal India Modules Pvt. Ltd.
14.	04-16066	M/s. Reppe Chemicals Pvt. Ltd.
15.	04-36517	M/s. Rishi And ACT Pvt. Ltd.
16.	04-36302	M/s. Shayoka Infosys Pvt. Ltd.
17.	04-34221	M/s. Sanidhya Printing And Packaging Pvt. Ltd.
18.	04-02143	M/s. S. Thakore Rubber & Plastic Industries Pvt. Ltd.
19.	04-26163	M/s. Shree Pollu-con Pvt. Ltd.
20.	04-17004	M/s. Sherman Trade Pvt. Ltd.
21.	04-42467	M/s. Solution Partner Gujarat Pvt. Ltd.
22.	04-19657	M/s. Silite Nikita Pvt. Ltd.
23.	04-2003	M/s. Shree Shiv Shakti Fin-a-Fab Pvt. Ltd.
24.	04-40298	M/s. Silkcity Electricity Co. Ltd.
25.	04-36322	M/s. Stallion Industrial Securities Pvt. Ltd.
26.	04-24562	M/s. Securities Research And Investment Services Ltd.
27.	04-34265	M/s. Saalasar Synthetics Pvt. Ltd.
28.	04-41209	M/s. Sardar Tradelink Pvt. Ltd.
29.	04-24466	M/s. Sanghavi Oxyflame Pvt. Ltd.
30.	04-42675	M/s. Spnenoid Consultancy Services Pvt. Ltd.
31.	04-17521	M/s. Tej Dev Plastic Windor Pvt. Ltd.
32.	04-26126	M/s. Taxus Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
33.	04-44483	M/s. Unifil Yarns Pvt. Ltd.
34.	04-38252	M/s. Vama Jewellery Pvt. Ltd.
35.	04-35410	M/s. Vector Chem Tech Pvt. Ltd.
36.	04-41841	M/s. Vandana Hospitality Services Pvt. Ltd.
37.	04-40862	M/s. Vigneshwar Marketing Pvt. Ltd.
38.	04-18552	M/s. Yonex Systems Ltd.
39.	04-22190	M/s. Yonex Leasing And Finance Pvt. Ltd.
40.	04-19221	M/s. Yogi Dynamic Syndicate Pvt. Ltd.
41.	04-07058	M/s. Sukam Investments Pvt. Ltd.
42.	04-06666	M/s. Gujarat Frozen Foods Pvt. Ltd.
43.	04-32960	M/s. Bhagyoday Ginning Pvt. Ltd.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Patna-800001, the 27th June 2007

No. ROC/PAT/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
01.	03-9874	M/s. Honey Computers Private Limited.
02.	03-9946	M/s. Sunlotus Homes Private Limited.
03.	03-9877	M/s. R. P. Singh Dangi, Cycle, Rickshaw Thela Supply Co. Private Limited.
04.	03-9986	M/s. Riser Esperer Pharmaceuticals Private Limited.
05.	03-3273	M/s. Patna Electro Earth Movers Private Limited.
06.	03-9989	M/s. Aloha Infosystem Limited.
07.	03-9114	M/s. Hirshibaeyom Builders & Developers Private Limited.
08.	03-9990	M/s. Jihuli Constructions Private Limited.
09.	03-9887	M/s. Unnat Consumers Marketing Private Limited.
10.	03-3274	M/s. Anu Engineers (India) Private Limited.
11.	03-9616	M/s. Vikash Kunal Vatanukullit Private Limited.
12.	03-9609	M/s. Maa Sherawali Coldstorage Private Limited.
13.	03-9385	M/s. Athirthi Builders Private Limited.
14.	03-9360	M/s. Kartikay Builders Private Limited.
15.	03-9493	M/s. Sambhuti Agro Exports Company Private Limited.
16.	03-9199	M/s. Sara Nirman Private Limited.
17.	03-9841	M/s. Sherus Exim Limited.
18.	03-9837	M/s. Amazer Marketing Private Limited.
19.	03-9922	M/s. Dinis Motor Private Limited.
20.	03-3276	M/s. Eversun Engineering Company Private Limited.
21.	03-9072	M/s. Ornate Casting Private Limited.
22.	03-9089	M/s. Chitragupta Engineers & Developers Private Limited.
23.	03-9888	M/s. Piramedal Network and Services Private Limited.
24.	03-9206	M/s. Green Energy Developers & Construction Private Limited.

1	2	3	1	2	3
25.	03-2355	M/s. Marks & Company Hotel Private Limited.	52.	03-9940	M/s. Beiogen Healthcare Private Limited.
26.	03-2145	M/s. Agarwal Industrial Agencies Private Limited.	53.	03-9928	M/s. Redial Bells Network Marketing Private Limited.
27.	03-2155	M/s. Kumar Technoforms Private Limited.	54.	03-3363	M/s. Apna Ashiana Private Limited.
28.	03-2142	M/s. Hotel Rose Bud Private Limited.	55.	03-9646	M/s. Hariom Cattlefeed Private Limited.
29.	03-1001	M/s. MAPCO International Private Limited.	56.	03-9091	M/s. Bag Bari Cold Storage Private Limited.
30.	03-1005	M/s. Sazeeva Hotel & Company Private Limited.	57.	03-3339	M/s. Plenum Plastics Private Limited.
31.	03-1006	M/s. Ashok Drug & Appliances Private Limited.	58.	03-3332	M/s. Radhika Doubling Mills Limited.
32.	03-1009	M/s. Bihar Type Foundry Private Limited.	59.	03-9915	M/s. Chirag Raaj Construction Private Limited.
33.	03-1010	M/s. Adityapur Engineering Industries Private Limited.	60.	03-9892	M/s. Golden & Golden Helpline Marketing Private Limited.
34.	03-1011	M/s. Bihar Electricals and Electronics Limited.	61.	03-9983	M/s. Nirmala Re-Trading Company India Private Limited.
35.	03-9921	M/s. Aravind Marketing & Networking Private Limited.	62.	03-9950	M/s. Jeevan Pragati Network Marketing Private Limited.
36.	03-9901	M/s. Ranvijay Indian Sky Shop Private Limited.	63.	03-9974	M/s. Shekhar Agro Corpn. Private Limited.
37.	03-9914	M/s. Mechat Ronics Alliance Limited.	64.	03-9971	M/s. Royal Panthar Security Services Private Limited.
38.	03-9907	M/s. Karnawati Enterprises India Private Limited.	65.	03-10016	M/s. Bright Marketing System Private Limited.
39.	03-9918	M/s. Bustana Vision Private Limited.	66.	03-10084	M/s. Sanu Kumar Singh Contractor Private Limited.
40.	03-9802	M/s. Iceberg Shipping Private Limited.	67.	03-3395	M/s. Shranav Speciality Papers Private Limited.
41.	03-9803	M/s. Step-N-Step Network & Services Private Limited.	68.	03-3361	M/s. Purvanchal Cottage Industries Private Limited.
42.	03-9863	M/s. Udayanchal Construction Private Limited.	69.	03-2088	M/s. Shitalson Organochem Private Limited.
43.	03-9685	M/s. Ram Barai Singh Construction Company Private Limited.	70.	03-2095	M/s. Purvanchal Polyways Industries Private Limited.
44.	03-9612	M/s. Anubhav Legal Consultants Private Limited.	71.	03-2096	M/s. Verma Cold Storage & Industries Private Limited.
45.	03-10061	M/s. Gangasagar Engicons Private Limited.	72.	03-2121	M/s. Arya Nirman Company Private Limited.
46.	03-3367	M/s. Sarita Nursing Home Private Limited.	73.	03-2144	M/s. Vaishali Polymers Private Limited.
47.	03-9697	M/s. Bharadwaj Construction Private Limited.	74.	03-2309	M/s. Dharti Fertilisers Private Limited.
48.	03-9701	M/s. Aerosol Healthcare Private Limited.	75.	03-2305	M/s. IBEX Electronics Private Limited.
49.	03-9546	M/s. Aryan Intelligence Services Private Limited.	76.	03-2304	M/s. Rozy Re-Rolling Mills Private Limited.
50.	03-9600	M/s. Rajkus Marketing Company Private Limited.	77.	03-2317	M/s. Synonym Chemicals Private Limited.
51.	03-9935	M/s. Rajbin Pharmaceuticals Private Limited.	78.	03-9154	M/s. Archangel Laboratories Limited.
			79.	03-9152	M/s. Jamshedpur Study Circle Private Limited.

1	2	3
80.	03-3398	M/s. M. Haque & Sons Consultancy Private Limited.
81.	03-3330	M/s. Shree Traders & Distributors Private Limited.
82.	03-10079	M/s. Parampara Publications Private Limited.
83.	03-10668	M/s. Surya and Sons Builders Private Limited.
84.	03-9967	M/s. Pentaoccean Construction Private Limited
85.	03-4142	MRK Yarn Industries Private Limited.

K. PRASAD  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Shillong-793001, the 14th May 2007

No. ROC/SH/560(3)/M/2007/1085-98.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of 3 (three) months from the date here of, the names of the following 12 companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of the said Act :—

Sl. Registration No.	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3
4		
1.	58-005357 M/s. Mama Cements Private Limited	Mizoram
2.	02-005437 M/s. Big Bid Construction Private Limited	Assam
3.	02-005438 M/s. Morner Tea (India) Private Limited	Assam
4.	02-005450 M/s. GGD Enterprises Private Limited	Assam
5.	02-005360 M/s. Rongpur Auto Private Limited	Assam
6.	02-005409 M/s. P. G. Steel Private Limited	Assam
7.	19-006464 M/s. Borok Transport Private Limited	Tripura
8.	02-006112 M/s. Delta Power Sales & Services Private Limited	Assam
9.	02-006082 Accolade Software Private Limited	Assam
10.	58-006077 Hauva Steel Private Limited	Mizoram

1	2	3	4
11.	02-006416	Microfine Tannery Private Limited	Assam
12.	02-006406	Banzara Travels Private Limited	Assam

K. ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
N. E. Region

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Shillong-793001, the 29th May 2007

No. ROC/SH/560(3)/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of 3 (three) months from the date here of, the names of the following 19 companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of the said Act.

Sl. Registration No.	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3
4		
1.	19-006463 M/s. Bothoma Buduk Development Private Limited	Tripura
2.	02-006414 M/s. Sonitpur Beverages And Provision Private Limited	Assam
3.	02-006348 M/s. New Asom Poly Products Private Limited	Assam
4.	02-006341 M/s. Namsai Tea Company Private Limited	Assam
5.	02-006235 M/s. Sarowar Agro Food Private Limited	Assam
6.	02-006210 M/s. Shristi Builders Private Limited	Assam
7.	02-006154 M/s. Kaziranga Industrial Security Private Limited	Assam
8.	02-006144 M/s. Laxjyoti Enterprise Private Limited	Assam
9.	12-006150 M/s. Meitei Leima Handloom Manipur And Trading Company Limited	Assam
10.	14-006510 M/s. Bangloi Hotel Private Limited	Nagaland
11.	02-006106 M/s. Alps Textiles Private Limited	Assam

1	2	3	4
12. 14-006552	M/s. Shovi Tea Company Private Limited		Nagaland
13. 02-006533	M/s. Pravin Dotcom Private Limited		Assam
14. 02-006413	M/s. Durba Electronics Private Limited		Assam
15. 02-006403	Ishita Biotech Private Limited		Assam
16. 23-006231	M/s. Donyi Polo Infotech Private Limited		Arunachal Pradesh
17. 02-006443	M/s. Sun Refri-systems Private Limited		Assam
18. 23-006339	M/s. Olima Distilleries Private Limited		Arunachal Pradesh
19. 12-006332	M/s. Manipur Agricultural Development Company Limited		Manipur

K. ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
N.E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manipur Trading Development Company Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00018/367.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Manipur Trading Development Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Benison Home Finance Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00021/369.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Benison Home Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Holy Land Hospital And Research Centre Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00024/372.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Holy Land Hospital And Research Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Agrani Tea Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00027/374.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Agrani Tea Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tani Builders And Planters Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00027/00031.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Tani Builders And Planters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Riviera Tabacco Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00036/377.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration

of three month from the date hereof the name of the M/s. Riviera Tobacco Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pikato Multi Sectoral Agro Projects Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00058/  
380.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Pikato Multi Sectoral Agro Projects Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Citident Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00039/  
382.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Citident Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off from the Register and the said  
company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunray Boards Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00055/  
384.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Sunray Boards Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. RDBM Construction Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00067/  
386.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. RDBM Construction Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Park Real Estates Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00061/  
387.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Park Real Estates Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shakti Beverages Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00043/  
390.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Shakti Beverages Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off from the Register and the  
said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brahmaputra Coldstorage Private Limited

Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00049/  
392.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Brahmaputra Coldstorage Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satkarta Tea & Agricultural Farm Private Limited  
Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00046/  
394.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Satkarta Tea & Agricultural Farm Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maa Hire Purchase Company Private Limited  
Shillong-793001, the 30th June 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2007/00052/  
396.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration  
of three month from the date hereof the name of the  
M/s. Maa Hire Purchase Company Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off from the  
Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
following Companies  
Cuttack-753001, 2nd July 2007

No. ROC/Sec. 560(5)/1905.—Notice is hereby given  
pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies  
Act, 1956 that the name of the following Companies have  
this day been struck off from the register of the Registrar of  
Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
01.	15-003220	M/s. Hotel Nilachakra Pvt. Ltd.
02.	15-003269	M/s. Bhanu Granites Pvt. Ltd.

1	2	3
03.	15-003270	M/s. Udaya Granites Pvt. Ltd.
04.	15-003271	M/s. Som Plantations and Agro Foods Pvt. Ltd.
05.	15-003277	M/s. Suvarnatara Minerals Ltd.
06.	15-003304	M/s. Madhuri Scents Pvt. Ltd.
07.	15-003426	M/s. Bana Bikash Plantations Pvt. Ltd.
08.	15-003457	M/s. Kalinga agrotech Industrial Products Ltd.
09.	15-003481	M/s. Nagarjuna Green Plants Ltd.
10.	15-003553	M/s. Ratna Giri Resorts And Plantation Ltd.
11.	15-003561	M/s. Eastern Plantation Agrotech Ltd.
12.	15-003571	M/s. Thomson Travels And Trade Pvt. Ltd.

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.  
Rural Agro Finance Limited

Cuttack-753001, 4th July 2007

No. ROC/Sec. 560(5)/1943.—Notice is hereby given  
pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the  
companies Act, 1956 that the name of M/s. Ostrich Farming  
India Private Limited has this day been struck off from the  
register of the Registrar of Companies and the said Company  
is dissolved.

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies :—

Kochi, the 19th June 2007

No. Notice.u/s 560(3)/SM/ROC-Ekm/7339/2007.—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section  
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of  
three months from the date hereof the names of the following  
companies unless cause is shown to the contrary, will be

struck off from the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Reg. No.	Company Name
1	2	3
01.	3501	M/s. Bhadradeepam Chit Funds Pvt. Ltd.
02.	3522	M/s. Thagma Engineering Works Pvt. Ltd.
03.	3544	M/s. ESGI Lumber India Pvt. Ltd.
04.	3577	M/s. IBEX Hotel Consultants Pvt. Ltd.
05.	3586	M/s. Surgical Aids Pvt. Ltd.
06.	3606	M/s. Premier Overseas Construction Co. Pvt. Ltd.
07.	3683	M/s. Puliara Diary And Allied Industries Pvt. Ltd.
08.	3697	M/s. Friends Publishing Co. Pvt. Ltd.
09.	3702	M/s. Petite Services Pvt. Ltd.
10.	3715	M/s. Little Prince Publications Pvt. Ltd.
11.	3721	M/s. Highrock Cements And Industries Pvt. Ltd.
12.	3736	M/s. Tellic Marketing Pvt. Ltd.
13.	3755	M/s. Link Marketing Services Pvt. Ltd.
14.	3817	M/s. Venad Bottling Plant Pvt. Ltd.
15.	3823	M/s. Cross Detective And Security Services Pvt. Ltd.
16.	3833	M/s. Snokiss Food Products Pvt. Ltd.
17.	3828	M/s. Anashwara Films Pvt. Ltd.
18.	3850	M/s. Udayalakshmi Kuries And Loans Pvt. Ltd.
19.	3884	M/s. Malanad Kuries Pvt. Ltd.
20.	3888	M/s. K. N. Shihab Constructions Pvt. Ltd.
21.	3907	M/s. Travelcard Services India Pvt. Ltd.
22.	3925	M/s. Surge Printing And Publishing Co. Pvt. Ltd.
23.	3972	M/s. Genuine Oils And Consumer Products Pvt. Ltd.
24.	4011	M/s. Air Conditioning Accessories And General Equipments Pvt. Ltd.
25.	4016	M/s. Bapuji Bricks and Clay Works Pvt. Ltd.
26.	4019	M/s. Lourdes Hospital Complex Pvt. Ltd.
27.	4030	M/s. Tecon Steel Industries Pvt. Ltd.
28.	4043	M/s. Anaswara Publications Pvt. Ltd.

1	2	3
29.	4044	M/s. Eben-Ezer Home for Integrated Healing Pvt. Ltd.
30.	4050	M/s. Bluelinks Enterprises Pvt. Ltd.
31.	4056	M/s. Hotel Bigben Pvt. Ltd.
32.	4067	M/s. Geo Cylinders Pvt. Ltd.
33.	4070	M/s. Oasis Soaps and Detergents Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
34.	4081	M/s. Promocure Pvt. Ltd.
35.	4086	M/s. Attapadi Food Industries Pvt. Ltd.
36.	4106	M/s. Erathu Vimuktha Bhada Motor Service Pvt. Ltd.
37.	4109	M/s. Hotel Ebenezer Pvt. Ltd.
38.	4122	M/s. Peacock Engineers Pvt. Ltd.
39.	4135	M/s. Das Distilleries Pvt. Ltd.
40.	4137	M/s. Crown Soft Drinks Pvt. Ltd.
41.	4144	M/s. Oasis Furnishers Pvt. Ltd.
42.	4156	M/s. Pegasus Consortium Pvt. Ltd.
43.	4160	M/s. Priya Metals Pvt. Ltd.
44.	4171	M/s. Apsara Builders Pvt. Ltd.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
following Companies

Chennai, the 29th June 2007

No. 34810 to 51252/SES-2005/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Reg. No.	Company Name
1	2	3
01.	34810	M/s. Pan Cassidys Construction And Realty Limited.
02.	34836	M/s. D. J. Gold House Private Limited.
03.	34841	M/s. Ra-Gem Benefit Fund Limited.
04.	34846	M/s. Jenith Oasis Finance and Investments TS Limited.
05.	34936	M/s. Mayflower Financial Services Limited.

1	2	3
06.	34940	M/s. Sri Raghavendra Visions Private Limited.
07.	34945	M/s. AQ Way (India) Private Limited.
08.	34966	M/s. Ilayaraja Music International Private Limited.
09.	34970	M/s. Ilayaraja Theatres Private Limited.
10.	35053	M/s. Kandan Steel Rolling Mills Private Limited.
11.	35058	M/s. Nandika Exports and Imports Private Limited.
12.	35098	M/s. Malaikotai Chit Funds Private Limited.
13.	35103	M/s. Kallianpur Housing Development Company Limited.
14.	35109	M/s. APT Education Systems Private Limited.
15.	35122	M/s. Static Graph Copiers (Madras) Private Limited.
16.	35133	M/s. Madras Bricks & Allied Products Private Limited.
17.	35150	M/s. Triumph Leathers (India) Private Limited.
18.	35173	M/s. Sree Bhuvaneswari Pharmaceuticals and Research Lab
19.	35243	M/s. Thilagam Financial Private Limited.
20.	35311	M/s. Auto Pulse India Private Limited.
21.	35324	M/s. Aum Builders Private Limited.
22.	35383	M/s. Ansar Impex India Private Limited.
23.	35395	M/s. Hi-Tech Power Laundry Private Limited.
24.	35416	M/s. Canara Benefit Fund (Madras) Limited.
25.	35435	M/s. Precision Polymer Products Private Limited.
26.	35460	M/s. Span Cements Private Limited.
27.	35472	M/s. Kalyan Petro Products Private Limited.
28.	35476	M/s. Ex Plus Finance (India) Private Limited.
29.	35477	M/s. Kamsuns Procon Private Limited.
30.	35544	M/s. Om Sri Sai Srivari Jewellers Private Limited.

1	2	3
31.	35557	M/s. N. S. Information Systems Private Limited.
32.	35658	M/s. R. Dave Ophthalmic Private Limited.
33.	35688	M/s. Jama Tours & Travels Private Limited.
34.	35689	M/s. Gurupawan Finance Limited.
35.	36702	M/s. Intelligent Black Office Support Services Private Limited.
36.	35711	M/s. India Oceanwealth Biotechnologies Private Limited.
37.	35713	M/s. Ambalal Resorts and Holdings Limited.
38.	35714	M/s. Goodwill Team Trade Services Private Limited.
39.	35727	M/s. Finser Properties Private Limited.
40.	35743	M/s. Chennai Castings Private Limited.
41.	35745	M/s. SMI Travels Private Limited.
42.	35762	M/s. Shree Jayalakshmi Pre Fab Limited.
43.	35781	M/s. Astral Ornaments Private Limited.
44.	35788	M/s. Benmac Estates Private Limited.
45.	35798	M/s. Gokibay Technophil Private Limited.
46.	35809	M/s. Pon Rose Marketing Private Limited.
47.	35811	M/s. White Line Poultry Products Private Limited.
48.	35821	M/s. Kodeeswara Chits Private Limited.
49.	35826	M/s. Anusha Textiles Limited.
50.	35834	M/s. Tirucadaiyur Abirami Chits Private Limited.
51.	35837	M/s. Devkar Benefit Fund Limited.
52.	35839	M/s. Devkar Chits Limited.
53.	35853	M/s. Camor Financial Services Private Limited.
54.	35872	M/s. BNP Publishers Private Limited.
55.	35884	M/s. Baby Cabs Private Limited.
56.	35890	M/s. PSPL Polymers Private Limited.
57.	35893	M/s. Blackstone Consultants Private Limited.
58.	35895	M/s. Chennai World Travels (India) Private Limited.
59.	35907	M/s. Classic Goat Farm Private Limited.
60.	35908	M/s. Arcindia Overseas Private Limited.



1	2	3
61.	35910	M/s. Visudha Agro Techs Limited.
62.	35919	M/s. Malligavathi Hospitals Private Limited.
63.	35922	M/s. Indo Kanya finance and Land Developments Company.
64.	35940	M/s. Sree Sudharsanachakra Texcot Limited.
65.	35954	M/s. Multitex Exports Private Limited.
66.	35981	M/s. Hikma Medicals Private Limited.
67.	35982	M/s. Mitras Residency Private Limited.
68.	35985	M/s. Maxffert Impex Private Limited.
69.	35996	M/s. Trichy Premier Chits Private Limited.
70.	36003	M/s. Sivagamy Trading Company Private Limited.
71.	36006	M/s. Prem Foundations (India) Private Limited.
72.	36019	M/s. Majestic Intex Decor Private Limited.
73.	36020	M/s. Ranar Pack Private Limited.
74.	36028	M/s. Vishku Finance & Investments Private Limited.
75.	36037	M/s. Gentech Consulting Private Limited.
76.	36053	M/s. Sands Chit Fund Co. Private Limited.
77.	36076	M/s. Dynacon Promoters Private Limited.
78.	36083	M/s. Data Tech Networks Private Limited.
79.	36094	M/s. Subasri Leasing Private Limited.
80.	36114	M/s. Isocopier Service Private Limited.
81.	36117	M/s. Srivari Constructions Limited.
82.	36141	M/s. New Tex Paper and Board Mills Private Limited.
83.	36167	M/s. Cosmin Enterprises Limited.
84.	36174	M/s. Aarel Management and Financial Consultants Private Limited.
85.	36177	M/s. Ronap Electronics Private Limited.
86.	36242	M/s. Mehta Scientific Company Private Limited.
87.	36250	M/s. Hotel SS Pandian Private Limited.
88.	36293	M/s. Castle Foundations Private Limited.
89.	36309	M/s. Bharatheeswarar Benefit Fund Limited.
90.	36321	M/s. Cart Technology (India) Private Limited.

1	2	3
91.	36322	M/s. Global Systems & Solutions (India) Private Limited.
92.	36326	M/s. Sarash Entertainments Private Limited.
93.	36404	M/s. Basheer Travel & Tours Private Limited.
94.	36410	M/s. Ramki Consultancy Private Limited.
95.	36416	M/s. ITA Trades Private Limited.
96.	36433	M/s. Life-Time Estates (India) Private Limited.
97.	36467	M/s. Hycom Information Systems Private Limited.
98.	36502	M/s. Pro AM Explorations (India) Private Limited.
99.	36511	M/s. Kamadhenu Orchards Private Limited.
100.	36526	M/s. Galaxy Coatings Private Limited.
101.	36566	M/s. Himalaya Amusement Plaza Limited.
102.	36614	M/s. Sri Chackrathazhvar Textiles Private Limited.
103.	36625	M/s. Mahindra Benefit Fund Limited.
104.	36671	M/s. Saraswathi Benefit Fund Limited.
105.	36686	M/s. Sri Swarna Foundations Private Limited.
106.	36732	M/s. Shri Gokula Krishna Benefit Fund Limited.
107.	36763	M/s. R. P. K. Flat Promoters Private Limited.
108.	36794	M/s. Urban Benefit Fund (Papanasam) Limited.
109.	36819	M/s. KMD Chits Private Limited.
110.	36828	M/s. Shringeri Textiles Limited.
111.	36834	M/s. Tamilnadu Breweries And Distilleries Private Limited.
112.	36843	M/s. Jotheeswari Benefit Fund Limited.
113.	36850	M/s. Comnet Technologies Private Limited.
114.	36858	M/s. Palpha Dairy Private Limited.
115.	36879	M/s. Levin Polymers Private Limited.
116.	36889	M/s. Frugal Finance Private Limited.
117.	36890	M/s. Frugal Credit Private Limited.

1	2	3	1	2	3
118.	36891	M/s. Frugal Investment Consultancy Services Private Limited.	146.	37151	M/s. Zigma Cuisines Private Limited.
119.	36892	M/s. Frugal Estates Private Limited.	147.	37152	M/s. Pani Resorts & Hotels Private Limited.
120.	36912	M/s. Chennai Dolphin Beach Club Private Limited.	148.	37154	M/s. Jean Foods Private Limited.
121.	36924	M/s. Laksan Engineering Private Limited.	149.	37163	M/s. Suzaan Investments Private Limited.
122.	36946	M/s. Dakshin Steel Private Limited.	150.	37165	M/s. Dasari Holdings Private Limited.
123.	36956	M/s. SRS Graphics Park Private Limited.	151.	37179	M/s. Saptharishi Impex Private Limited.
124.	36959	M/s. Neema Forest & Farms India Private Limited.	152.	37188	M/s. Pyramid Software Private Limited.
125.	36982	M/s. Freightlift Travel and Cargo Private Limited.	153.	37196	M/s. Selvam & Yogam Finance Limited.
126.	36983	M/s. Shobha Auto Components Private Limited.	154.	37213	M/s. Ujwal Carriers Private Limited.
127.	36997	M/s. Plastivision (India) Private Limited.	155.	37215	M/s. Mechatrol Assembly Systems and Controls Private Limited.
128.	37006	M/s. Syn-Di Tools (India) Private Limited.	156.	37253	M/s. Ajantha Fibreglass (India) Private Limited.
129.	37007	M/s. Redsons Packaging India Private Limited.	157.	37289	M/s. Shunmuga Priya Chitfunds Private Limited.
130.	37010	M/s. Jeyalakshmi Teak Farms Private Limited.	158.	37296	M/s. UC Internet Private Limited.
131.	37016	M/s. Pranavam Exports (Madras) Private Limited.	159.	37301	M/s. Tuticorin Lakshmi Finance Private Limited.
132.	37026	M/s. Chennai Clothings Private Limited.	160.	37317	M/s. Fifth Gen Usam Cad Automation Private Limited.
133.	37028	M/s. Sri Durga Lodge Private Limited.	161.	37324	M/s. Trustworth Homes Private Limited.
134.	37035	M/s. Al-Fathah Goat Farm Private Limited.	162.	37336	M/s. Sri Chakra Sports Training Centre Private Limited.
135.	37039	M/s. Maha Textiles Limited.	163.	37338	M/s. Ranipet Benefit Fund Limited.
136.	37042	M/s. Maruthi Air Lift Chennai Private Limited.	164.	37359	M/s. Subhalaab Marketing Private Limited.
137.	37043	M/s. Ecotech (India) Private Limited.	165.	37381	M/s. Sree Jupiter Benefit Fund Limited.
138.	37046	M/s. P. D. R. Chits Private Limited.	166.	37430	M/s. Ayyampettai Benefit Fund Limited.
139.	37048	M/s. Madras Factors Private Limited.	167.	37446	M/s. Dynasty Foundations Private Limited.
140.	37063	M/s. Sanjeevi Constructions Private Limited.	168.	37454	M/s. Sri Auromaa Lakshmi Benefit Fund Limited.
141.	37072	M/s. S.S.V. Systems Private Limited.	169.	38471	M/s. Chakraraja Auto Components (Chennai) Private Limited.
142.	37074	M/s. Green Cross Estates Private Limited.	170.	37475	M/s. T. M. S. Exports Private Limited.
143.	37083	M/s. Albert Finance Private Limited.	171.	37478	M/s. Maika Properties India Limited.
144.	37114	M/s. New Win Real Estate Private Limited.	172.	37488	M/s. Sri Seshasai Auto Components Private Limited.
145.	37119	M/s. Chennai Vageesan Builders Private Limited.	173.	37519	M/s. Radvin Marketing Private Limited.
			174.	37523	M/s. Solar Shade Nets Private Limited.

1	2	3
175.	37529	M/s. Daes Power Limited.
176.	37552	M/s. Tamilnadu Cogen Power Limited.
177.	37558	M/s. KSR Exports Private Limited.
178.	37559	M/s. Tekpro Services (India) Private Limited.
179.	37567	M/s. Pranavam Agro Products (Madras) Private Limited.
180.	37570	M/s. Springfield Floritech Private Limited.
181.	37579	M/s. Indira Home Outpatient and Intravenous Medication Private Limited.
182.	37597	M/s. Focus Marketing Services Private Limited.
183.	37609	M/s. Integrated Hospitals and Research Private Limited.
184.	37621	M/s. Sri Karpaga Vinayagar Finance Private Limited.
185.	37634	M/s. Com-Tech (Madras) Private Limited.
186.	37636	M/s. Bismi Estates Private Limited.
187.	37695	M/s. Royal Link Travels Private Limited.
188.	37701	M/s. Sri Sai Baba Shipping Private Limited.
189.	37711	M/s. GK Motors Finance (Madurai) Private Limited.
190.	37712	M/s. Sakura Sea Foods Private Limited.
191.	37719	M/s. Mathalai's Oils Private Limited.
192.	37739	M/s. SCE Consolidation India Private Limited.
193.	37758	M/s. Kandhakottam Benefit Fund Limited
194.	37767	M/s. Rau & Company Pharmaceutical Distributors Private Limited.
195.	37770	M/s. Sree Ganesh Asphalt Private Limited.
196.	37772	M/s. Ark Housing Limited.
197.	37778	M/s. Green Country Plantation Limited.
198.	37780	M/s. Rudhra Motel & Resorts Private Limited.
199.	37786	M/s. Green Country Property Services Private Limited.
200.	37788	M/s. Peacock Courier Services Limited.
201.	37804	M/s. Mekala M. S. P. Raja Chits Private Limited.

1	2	3
202.	37822	M/s. Quest Call Center Combine Private Limited.
203.	37823	M/s. Tharasu TV Private Limited.
204.	37842	M/s. Nagai Uma Housing Private Limited.
205.	37851	M/s. Palar Steels Private Limited.
206.	37902	M/s. I. C. N. Satellite & Cable-TV Systems Private Limited.
207.	37907	M/s. Athirstam Finance and Investments Private Limited.
208.	37908	M/s. Windsor Sathyam Engineering (India) Private Limited.
209.	37925	M/s. Byte Computer Academy Limited.
210.	37951	M/s. Dialog Exim (India) Private Limited.
211.	37959	M/s. Nila Softwares Private Limited.
212.	37963	M/s. Feather Touch Enterprise Private Limited.
213.	37967	M/s. Zen V Yes (India) Private Limited.
214.	37968	M/s. Silver Brooks Export Private Limited.
215.	38002	M/s. Sean Impex Private Limited.
216.	38009	M/s. Astral Health Systems Private Limited.
217.	38018	M/s. Kaizen Therapeutics (India) Private Limited.
218.	38025	M/s. Vishvak Finance Private Limited.
219.	38035	M/s. I. V. Fashions Private Limited.
220.	38055	M/s. Pournami Packaging Private Limited.
221.	38091	M/s. Raymold Marketing Private Limited.
222.	38092	M/s. R. S. M. Consultants Private Limited.
223.	38109	M/s. Konark Civil Constructions (India) Private Limited.
224.	38115	M/s. Ganapathy Construction Private Limited.
225.	38116	M/s. Compunet Information Technology Private Limited.
226.	38124	M/s. VSK Hospitals Private Limited.
227.	38134	M/s. Sri Sevugamoorthy Finance Private Limited.
228.	38135	M/s. Aranthai Ambika Chit Funds Private Limited.
229.	39139	M/s. Real Pleasure Concepts Private Limited.

1	2	3
230.	38143	M/s. Multi-Purpose Man Power Consultancy Private Limited.
231.	38147	M/s. Chennai Flowers & Plants Private Limited.
232.	38148	M/s. Ashtalakshmi Polymers Private Limited.
233.	38149	M/s. Sathya Sai Agencies (Chennai) Private Limited.
234.	38150	M/s. Premier Publishing Private Limited.
235.	38159	M/s. Prowins Overseas Trading Private Limited.
236.	38165	M/s. Vettri Foundations Private Limited.
237.	38169	M/s. Propel Controls Private Limited.
238.	38187	M/s. Masil Finance Private Limited.
239.	38202	M/s. M. M. Impex Private Limited.
240.	38203	M/s. PPG Properties Private Limited.
241.	38207	M/s. Nimmadhi Financial Services Private Limited.
242.	38250	M/s. Greenfield Health Services Private Limited.
243.	38269	M/s. Ramanathapuram Chitra Chits Private Limited.
244.	38293	M/s. Sudha Shirish Internet Solutions Private Limited.
245.	38333	M/s. Kalsar Petroproducts Private Limited.
246.	38334	M/s. Hosur Residents Club Limited.
247.	38392	M/s. Invincible Exports & Imports (Chennai) Private Limited.
248.	38396	M/s. Ozone Computers Private Limited.
249.	38423	M/s. SRC Fashions Private Limited.
250.	38436	M/s. Thiruvallur Auto Finance Private Limited.
251.	38496	M/s. Ramathilagam Constructions Private Limited.
252.	38522	M/s. Fasco Furniture & Interiors Private Limited.
253.	38557	M/s. LC Mining and Exports Private Limited.
254.	38584	M/s. Raja Stationery Printers Private Limited.
255.	38608	M/s. K. T. R. Estates Private Limited.

1	2	3
256.	38645	M/s. Infopower Computers Private Limited.
257.	38654	M/s. Camillus and Chandrasekhar Engineering Consultants Private Limited.
258.	38688	M/s. Mitra Jaya Trading Private Limited.
259.	38708	M/s. Anaar Venture Consultants Private Limited.
260.	38747	M/s. V & G Combines Private Limited.
261.	38837	M/s. Samurai Feeds Private Limited.
262.	38843	M/s. Silversands Beach Resorts (India) Private Limited.
263.	38853	M/s. Versacom Engineering & Services Private Limited.
264.	38883	M/s. Palsteel Finance Limited.
265.	38888	M/s. New World Resorts (Kodai) Private Limited.
266.	38930	M/s. Newwave Infosolutions Private Limited.
267.	38978	M/s. Savoir-Faire Information Systems Private Limited.
268.	39030	M/s. Glamour Battery Private Limited.
269.	39031	M/s. Sensotech Instrument India Private Limited.
270.	39046	M/s. Enviro-Care Pollution Control Engineers Private Limited.
271.	39058	M/s. Galaxy Electricals Private Limited.
272.	39082	M/s. Sri Koppammal Finance Private Limited.
273.	39148	M/s. Nellai Sun Publishers Private Limited.
274.	39164	M/s. Vivekananda Computer Centre Private Limited.
275.	39212	M/s. Esvee Impex Trading Private Limited.
276.	39231	M/s. Panchajanyam Impex Private Limited.
277.	39242	M/s. Gokulam Department Stores Private Limited.
278.	39243	M/s. Pan Trousers Limited.
279.	39250	M/s. Ushalaya Foods Private Limited.
280.	39256	M/s. Raja Beverage Industries Limited.
281.	39277	M/s. Indyatra Tours & Travels Private Limited.

1	2	3
282.	39288	M/s. Kaba Safe Lockers (Madras) Private Limited.
283.	39307	M/s. Malar Foods Private Limited.
284.	39319	M/s. Priyadarshini Tours & Travels Private Limited.
285.	39349	M/s. A.A.P. Fashion Private Limited.
286.	39351	M/s. Ganesh Concepts and Creations Private Limited.
287.	39361	M/s. MRG Software Information Systems Private Limited.
288.	39362	M/s. Supreme Tapes Private Limited.
289.	39367	M/s. Ruby Software Private Limited.
290.	39370	M/s. Reep Marketing Services Private Limited.
291.	39380	M/s. Digi Net India Private Limited.
292.	38385	M/s. Providential Marketing Private Limited.
293.	39387	M/s. J LIM Marketing Services Private Limited.
294.	39402	M/s. S. R. N. Management Consultants Private Limited.
295.	39414	M/s. Rilisar Halal Business Private Limited.
296.	39417	M/s. Friends Business Credit Private Limited.
297.	39418	M/s. Matta Aircon Private Limited.
298.	39425	M/s. Saras Fashions & Cosmetics Private Limited.
299.	39440	M/s. Virgo Synthetics Private Limited.
300.	39446	M/s. Subha Department Stores Private Limited.
301.	39459	M/s. Costplusimport & Export Private Limited.
302.	39471	M/s. Mast Lanka (India) Private Limited.
303.	39472	M/s. Lightroof Plastics Private Limited.
304.	39475	M/s. Thothadri Finance Private Limited.
305.	39492	M/s. Pneu Pack Private Limited.
306.	39502	M/s. Sriananth T. A. Consultancy Private Limited.
307.	39503	M/s. Turning Point Career Options and HRD Solutions Private Limited.
308.	39507	M/s. A. H. N. Management Services Private Limited.

1	2	3
309.	39512	M/s. S. S. R. S. Builders Private Limited.
310.	39515	M/s. XPM Automation Private Limited.
311.	39527	M/s. Tri Colour Exports Private Limited.
312.	39529	M/s. Construction Industrial Training Centre Private Limited.
313.	39538	M/s. Shri Aiswarya Lakshmi Builders & Developers Private Limited.
314.	39544	M/s. Spartan Enterprises Private Limited.
315.	39559	M/s. Winland Property Services Private Limited.
316.	39560	M/s. Winland Horticulture Private Limited.
317.	39579	M/s. Buckmers Management Services Private Limited.
318.	39588	M/s. Grace Residency Private Limited.
319.	39590	M/s. Mushikha Chits Private Limited.
320.	39592	M/s. Caamedic Private Limited.
321.	39604	M/s. Didar Sports Private Limited.
322.	39620	M/s. Sastha Property Developers Private Limited.
323.	39632	M/s. Akas Knitwear Private Limited.
324.	39634	M/s. Tamil Nadu Buildings Limes and Lime Chemicals Private Limited.
325.	39636	M/s. Rishika Packaging Private Limited.
326.	39648	M/s. Bharani Hospitality Services Private Limited.
327.	39666	M/s. Eneskay Power Limited.
328.	39668	M/s. Bhairavi Studios Private Limited.
329.	39694	M/s. Amman Foods and Spices Private Limited.
330.	39706	M/s. Hi-Tek Communications & Softwares Private Limited.
331.	39723	M/s. Kanzen Fibres Private Limited.
332.	39728	M/s. Confidence Benefit Fund (Mannargudi) Limited.
333.	39732	M/s. Designspark Technologies Private Limited.
334.	39734	M/s. S.A.A. Travel Homes Private Limited.
335.	39752	M/s. CEG Engineering Systems Private Limited.

1	2	3	1	2	3
336.	39754	M/s. Crystal Cargo Agencies Private Limited.	362.	40121	M/s. Play D'sign Games Private Limited.
337.	39763	M/s. Kanakadhara Consumer Products Private Limited.	363.	40134	M/s. Shankar Azhagu Illam Builders Private Limited.
338.	39765	M/s. Ranipet Gowrilaxmi Chit Funds Private Limited.	364.	40137	M/s. Rockfort Plantations Private Limited.
339.	39788	M/s. E. S. Mydeen Tobacco Company Private Limited.	365.	40188	M/s. Taurus Foods & Spices Private Limited.
340.	39819	M/s. Doctors Cardiac Care Centre Private Limited.	366.	40215	M/s. Allied Informatics (India) Private Limited.
341.	39828	M/s. Prodigy Computers and Communications Private Limited.	367.	40252	M/s. Eagle Stevedores Private Limited.
342.	39832	M/s. Sathyasai Ram Traders Private Limited.	368.	40263	M/s. Overland Technologies Private Limited.
343.	39835	M/s. Siva Vishnu Recruitment Services Private Limited.	369.	40267	M/s. Fourways Courier-Pak & Cargo Private Limited.
344.	39841	M/s. SA Metals Private Limited.	370.	40279	M/s. Aaha Agro Foods Private Limited.
345.	39844	M/s. S. K. Aluminium Fabs Private Limited.	371.	40301	M/s. B. D. Goenka Aban City Centre Company Private Limited.
346.	39868	M/s. Samson Stonex India Private Limited.	372.	40303	M/s. Verstand Intelligence & Technologies Private Limited.
347.	39878	M/s. Krishnas Dwellings Private Limited.	373.	40311	M/s. Rajesh Stainless Private Limited.
348.	39894	M/s. Hindustan Home Needs Private Limited.	374.	40318	M/s. Blue Pearl Club and Resorts Private Limited.
349.	39919	M/s. Sysbon Dental Specialities Private Limited.	375.	40335	M/s. Comfort Properties Private Limited.
350.	39922	M/s. Work Wear Exports Private Limited.	376.	40364	M/s. B. M. G. Square Farm & Properties Private Limited.
351.	39938	M/s. Mysacs Exim Private Limited.	377.	40373	M/s. Bohemia House (India) Private Limited.
352.	39940	M/s. Sri Vijayalakshmi Motors and Tractors Private Limited.	378.	40381	M/s. L. M. S. Organics Private Limited.
353.	39943	M/s. Panchami Chits Private Limited.	379.	40393	M/s. Fluxcored Alloys Private Limited.
354.	39988	M/s. Surabi Enterprises Private Limited.	380.	40420	M/s. Titanic Exports Private Limited.
355.	39989	M/s. Expressions Marketing Services Private Limited.	381.	40421	M/s. Taurus Foundations Private Limited.
356.	40011	M/s. Vajram Hi-Tech Creations Private Limited.	382.	40426	M/s. Taurus Advertising Private Limited.
357.	40022	M/s. East Coast Garnet and Abrasives Private Limited.	383.	40428	M/s. Goodluck Type Foundry Private Limited.
358.	40032	M/s. AG Maptech Private Limited.	384.	40445	M/s. Rajavi Agro-Tech Private Limited.
359.	40084	M/s. Frigosan Engineers Private Limited.	385.	40454	M/s. Amar Health Care Private Limited.
360.	40110	M/s. Arivu Microsystems Private Limited.	386.	40455	M/s. Amar Clinics Private Limited.
361.	40113	M/s. FRF Leathers Private Limited.	387.	40464	M/s. Swell Projects Private Limited.
			388.	40472	M/s. Leemee Agencies Private Limited.
			389.	40492	M/s. Instrument Innovations and Marketing Private Limited.
			390.	40502	M/s. P. S. Industrial Components Private Limited.

1	2	3
391.	40503	M/s. Supreme Direct Marketing Services Private Limited.
392.	40523	M/s. Sama Property Services Private Limited.
393.	40530	M/s. Q Bridge Interactive Learning Private Limited.
394.	40533	M/s. Achievement Financial Services Private Limited.
395.	40536	M/s. PSG Constructions Private Limited.
396.	40539	M/s. S. P. M. Equipments Private Limited.
397.	40558	M/s. Sequel Solutions Private Limited.
398.	40568	M/s. T. H. I. Interior Designers Executioners & Appraisers Private Limited.
399.	40570	M/s. Kalsar Marketing Agency Private Limited.
400.	40574	M/s. Balambigai Chits Private Limited.
401.	40579	M/s. Eclectica Engineering Company Private Limited.
402.	40594	M/s. Savitri Resources Private Limited.
403.	40595	M/s. Sri Bagyalakshmi International Private Limited.
404.	40619	M/s. Darshan Cine Lab Private Limited.
405.	40626	M/s. Khalid Investments Private Limited.
406.	40636	M/s. Hotel Vishrant Private Limited.
407.	40637	M/s. Copper Foil India Limited.
408.	40641	M/s. Rajams Cafe Private Limited.
409.	40642	M/s. STS Offshore Services (India) Private Limited.
410.	40647	M/s. Shri Arunasaleswarar Dairy Farm Private Limited.
411.	40648	M/s. S. J. S. Communications Private Limited.
412.	40652	M/s. Winland Creative Products Private Limited.
413.	40668	M/s. Jansel Constructions Private Limited.
414.	40681	M/s. Amar Bio-Medicals Private Limited.
415.	40683	M/s. Amar Cardiac Care Centre Private Limited.
416.	40699	M/s. Poh Lian Training & Management (India) Private Limited.
417.	40706	M/s. P. M. R. Farms Private Limited.

1	2	3
418.	40715	M/s. Esteem Tech India Private Limited.
419.	40727	M/s. MSB Engineering Company Private Limited.
420.	40729	M/s. Pillar Trading Company Private Limited.
421.	40731	M/s. Kokusai Health Care Private Limited.
422.	40437	M/s. Thanjavur Kanniah Chits Private Limited.
423.	40757	M/s. M. J. Real Estates (Chennai) Private Limited.
424.	40764	M/s. Gold Arc Developers Private Limited.
425.	40768	M/s. Mithali Foods Private Limited.
426.	40773	M/s. Ebizlinx Private Limited.
427.	40795	M/s. Innvol Hospital Private Limited.
428.	40800	M/s. M. B. C. Tours and Travels Private Limited.
429.	40802	M/s. MBC Resorts Private Limited.
430.	40816	M/s. DCFC Shipping & Forwarding Private Limited.
431.	40819	M/s. JDI Construction Private Limited.
432.	40829	M/s. Sattva Business Solutions Private Limited.
433.	40836	M/s. SAM Coating Systems Private Limited.
434.	40843	M/s. Thilagam Power Infra Limited.
435.	40855	M/s. Karim's Hotel Supplies & Services Private Limited.
436.	40861	M/s. Aristocrat Holdings Private Limited.
437.	40903	M/s. Pivot Software Solution Private Limited.
438.	40919	M/s. Kayes Fabrics Exports Private Limited.
439.	40961	M/s. Airbridge Services Private Limited.
440.	40979	M/s. MSK Medical Laboratories Private Limited.
441.	40988	M/s. Singapore Piling India Private Limited.
442.	40999	M/s. Gemnet Infotech India Private Limited.
443.	41018	M/s. Kumar Rajan Rerolling Mill Private Limited.
444.	41028	M/s. Arudra Exports Private Limited.

1	2	3	1	2	3
445.	41030	M/s. East Hides India Private Limited.	473.	41305	M/s. Pilsun Packs Private Limited.
446.	41035	M/s. Practical Technology India Private Limited.	474.	41332	M/s. PCC Power Limited.
447.	41039	M/s. Starex Security Services Private Limited.	475.	41337	M/s. Milestone Ventures Private Limited.
448.	41049	M/s. Sumi Hitec Exports Private Limited.	476.	41345	M/s. Sec Labs Limited.
449.	41053	M/s. Team Constructions Private Limited.	477.	41352	M/s. Vasstech Constructions Private Limited.
450.	41064	M/s. Sri Devi Plantations Private Limited.	478.	41353	M/s. Princess Infotech Private Limited.
451.	41066	M/s. Nach Plantations Private Limited.	479.	41378	M/s. Kong Siong Ottc India Private Limited.
452.	41072	M/s. Peeyempee Marine Exports Private Limited.	480.	41385	M/s. Leisure Adventure Company Private Limited.
453.	41075	M/s. Deccan Refinotech Private Limited.	481.	41401	M/s. D. S. Agro Technica Engineers Private Limited.
454.	41084	M/s. Nagarjuna Exports Private Limited.	482.	41403	M/s. Anand Educations Private Limited.
455.	41086	M/s. Zodiac Crystal Quartz Private Limited.	483.	41412	M/s. Flying Tigers Travels and Cargo Private Limited.
456.	41109	M/s. AQ International Private Limited.	484.	41417	M/s. Elcaro Technologies Private Limited.
457.	41131	M/s. Kanrey Foods Private Limited.	485.	41434	M/s. Pal's Wines Private Limited.
458.	41134	M/s. Samaritan Services Private Limited.	486.	41437	M/s. Professional Head-End Systems Private Limited.
459.	41137	M/s. Sri Kannan Hospitals Private Limited.	487.	41443	M/s. Wintech Turbo Systems Private Limited.
460.	41157	M/s. Chennai Carewell Fashions Private Limited.	488.	41473	M/s. Kanna Resorts Private Limited.
461.	41185	M/s. Aete Exports Private Limited.	489.	41487	M/s. Midas Internet Services Private Limited.
462.	41209	M/s. Superfine Investments Private Limited.	490.	41497	M/s. Your's Hair Products Private Limited.
463.	41213	M/s. Vivekananda Pictures Private Limited.	491.	41498	M/s. Stallion Generators Private Limited.
464.	41215	M/s. City Suburbs Estates Private Limited.	492.	41502	M/s. Pradam Technologies Private Limited.
465.	41216	M/s. Papu Textiles Private Limited.	493.	41522	M/s. Nextgen Ventures Private Limited.
466.	41219	M/s. Janani Steel Private Limited.	494.	41534	M/s. Karur Infonet Solutions Private Limited.
467.	41220	M/s. NVS Computer Centre Private Limited.	495.	41554	M/s. Online Information Technology Chennai Private Limited.
468.	41230	M/s. Blueocean Software Solutions Private Limited.	496.	41564	M/s. Ideal Sourcing Agencies Private Limited.
469.	41243	M/s. Elve Aero Frigo Private Limited.	497.	41604	M/s. Vender Power Limited.
470.	41259	M/s. Stanley Financial Services Private Limited.	498.	41608	M/s. Uniroyal Systems Private Limited.
471.	41273	M/s. David Quigley Machinery (India) Private Limited.	499.	41652	M/s. LMC Closures Private Limited.
472.	41279	M/s. Kudill Housing Promoters Private Limited.	500.	41669	M/s. Innvol Software System Private Limited.



1	2	3
501.	41679	M/s. Ramji Audio & Video Private Limited.
502.	41687	M/s. N. R. Multi Press Printers Private Limited.
503.	41688	M/s. Veteran Systems Private Limited.
504.	41695	M/s. H. M. S. K. Metal Private Limited.
505.	41711	M/s. Easvari Travels Private Limited.
506.	41739	M/s. THT Communication Limited.
507.	41757	M/s. Annai Milk & Dairy Products Private Limited.
508.	41763	M/s. Cosway Direct Marketing Private Limited.
509.	41768	M/s. Zen Office Equipments Private Limited.
510.	41769	M/s. IDD Indium Private Limited.
511.	41806	M/s. Land Mark Gold Supplies Private Limited.
512.	41810	M/s. Hisea's Expo Impo Private Limited.
513.	41815	M/s. Lateral Software Technology Private Limited.
514.	41822	M/s. SAR Constructions Private Limited.
515.	41829	M/s. Jaaguvaar Fire Force Private Limited.
516.	41839	M/s. Capovi Foods Private Limited.
517.	41853	M/s. Rohini Oils Private Limited.
518.	41858	M/s. Infratechno Consultants Private Limited.
519.	41908	M/s. Aroor Organic Agro Private Limited.
520.	41914	M/s. Wan Soon Construction (India) Private Limited.
521.	41917	M/s. FML Export Consolidation Services Private Limited.
522.	41920	M/s. Chennai Sai Impex Private Limited.
523.	41932	M/s. Aravind Power Converters Private Limited.
524.	41935	M/s. SRB Builders Limited.
525.	41939	M/s. Indus Logistics Limited.
526.	41953	M/s. Diligent Computer Solutions Private Limited.
527.	41969	M/s. JE Exports Private Limited.
528.	41992	M/s. Plaspro Polyweaves Private Limited.
529.	42020	M/s. Synergy Transcript Private Limited.

1	2	3
530.	42026	M/s. Nilaa Chits Private Limited.
531.	42032	M/s. RMM Fashions Private Limited.
532.	42041	M/s. Harihara Sudhan Agencies Private Limited.
533.	42050	M/s. Plasmio Petchem Private Limited.
534.	42051	M/s. Xcellent Sewing Technics Private Limited.
535.	42063	M/s. Nodal Energy World Services Private Limited.
536.	42067	M/s. S.A.P. Marketing Private Limited.
537.	42073	M/s. APS Interface Solutions Private Limited.
538.	42075	M/s. Sahara Nutrition Private Limited.
539.	42104	M/s. Dominic FRP Private Limited.
540.	42109	M/s. CTR Systems Private Limited.
541.	42152	M/s. Chennai Jute Company Private Limited.
542.	42159	M/s. Seaport Enterprises Private Limited.
543.	42185	M/s. Raghava Roadways Private Limited.
544.	42214	M/s. Smart-IT Professionals Limited.
545.	42217	M/s. Elahi Civil Associates Private Limited.
546.	42222	M/s. Akama Designwear Private Limited.
547.	42267	M/s. Vinco Securities Private Limited.
548.	42280	M/s. Shanmuga Exports Private Limited.
549.	42285	M/s. Vijaya Imports Private Limited.
550.	42293	M/s. Care Point Addiction Research Centre Private Limited.
551.	42338	M/s. Elve Sys Private Limited.
552.	42362	M/s. Vinayaka News World Private Limited.
553.	42369	M/s. Guru Kriba Associates Private Limited.
554.	42371	M/s. Institute of Software Technology Private Limited.
555.	42419	M/s. Jai Kumaran Agro Base Private Limited.
556.	42422	M/s. Kids & Computers Private Limited.
557.	42445	M/s. Morai Tex Private Limited.
558.	42455	M/s. Satya Manpower Private Limited.

1	2	3	1	2	3
559.	42465	M/s. Cytus Technologies Private Limited.	575.	42601	M/s. Southsafe Power Systems Private Limited.
560.	42491	M/s. Metro Clearing & Forwarding Services Private Limited.	576.	42605	M/s. Geddeh Mercantile Private Limited.
561.	42493	M/s. Advanced Training Institute for Information Techno Private Limited.	577.	42613	M/s. Oxford Media (India) Private Limited.
562.	42508	M/s. Intrade Entrepreneurs Private Limited.	578.	42620	M/s. Nimal Biotech Private Limited.
563.	42512	M/s. Ramya Geo Informatics Private Limited.	579.	42633	M/s. Winwin Technologies Private Limited.
564.	42528	M/s. Poppy Constructions Private Limited.	580.	42643	M/s. Edusource Students Services Private Limited.
565.	42531	M/s. Clean Living Laundry Services Private Limited.	581.	42648	M/s. Again Technologies (India) Private Limited.
566.	42533	M/s. Greenhands Construction Private Limited.	582.	42649	M/s. Thozhil Ulagam Publications Private Limited.
567.	42545	M/s. Meducational Skills, Tools & Technology Private Limited.	583.	42651	M/s. Akantitha Chits Private Limited.
568.	42556	M/s. Jayalakshmi Wines Private Limited.	584.	42652	M/s. Vee Sky Builders & Consultants Private Limited.
569.	42560	M/s. Launchpad Exim Services Private Limited.	585.	42654	M/s. ASA Infosoftware Private Limited.
570.	42569	M/s. Macaulay Knits & Exports Private Limited.	586.	42660	M/s. Agrazur International Private Limited.
571.	42580	M/s. Balasubramanian Agencies Private Limited.	587.	44257	M/s. Maars Software Employees Welfare Foundation Private Limited.
572.	42590	M/s. Chennai Earth Moving and Auto Parts Private Limited.	588.	46247	M/s. Old Parents Caretaking Organization Private Limited.
573.	42592	M/s. Metfin Abrasives Private Limited.	589.	51252	M/s. Ravisa Hospital Private Limited.
574.	42593	M/s. Promen Technologies Private Limited.			

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamil Nadu